



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12—जून 18, 2010 (ज्येष्ठ 22, 1932)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12—JUNE 18, 2010 (JYAISTHA 22, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)
मुंबई, दिनांक 21 अप्रैल 2010

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003

सं. गैबैपवि (नीति प्रभा. एससी/आरसी) 7/मुमप्र (एएसआर) 2009-2010—भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिज़र्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेदकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाए जा रहे कार्यकलापों को या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग चलाए जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए “वित्तीय परिसंपत्तियों (आस्तियों) के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002” की धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003 (जिन्हें इसके बाद मार्गदर्शी सिद्धांत/निदेश कहा गया है) को संशोधित करने का निदेश देता है, अर्थात् :--

1. मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 7 (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

“(2) (i) प्रबंधन में परिवर्तन या का अधिग्रहण

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 9(क) में विनिर्दिष्ट उपाय दिनांक अप्रैल 21, 2010 के कंपनी परिपत्र सं. गैबैपवि/ नीति प्रभा. (SC/RC) सं. 17/26.03.001/2009-10, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसरण में प्रयोग में लाएगी।

(ii) उधारकर्ता के भाग या संपूर्ण कारोबार की बिक्री या को पट्टे पर देना

कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त अधिनियम की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट उपायों का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि बैंक इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं कर देता है।

ए. एस. राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी
(रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003

सं. गैबैपवि नीति प्रभा. (SC/RC)/8/सीजीएम (एसएसआर)-2009-2010---

भारतीय रिजर्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए; "प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003" को संशोधित करना आवश्यक है, वित्तीय परिसंपत्तियों (आस्तियों) के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10 तथा 12 एवं इस संबंध में उसे प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देता है कि 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैपवि. 2/ सीजीएम (सीएसएम)-2003 में अंतर्विष्ट निदेश, जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है, निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात्-

1. निदेश के पैराग्राफ 3 (1) में खंड (iii) को निम्नलिखित खंड (iii) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(iii) "अर्जन की तारीख" का अर्थ उस तारीख से है जिस तारीख को प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व अपनी बहियों में या ट्रस्ट की बहियों में सीधे ग्रहण करती है;"

2. निदेश के पैराग्राफ 7(1) में, खंड (i) में, उपखंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा।

"(क) अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में सीधे अर्जन के मानदण्ड और प्रक्रिया;"

3. निदेश के पैराग्राफ 7(6) में, खंड (ii) में के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे।

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नीति बनाएगी जिसके अंतर्गत संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि उनके अर्जन की तारीख से पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

- (iii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक बोर्ड वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि बढ़ा सकेगा जो संबंधित परिसंपत्ति के अर्जन की तारीख से कुल मिलाकर आठ वर्षों से अधिक अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी का निदेशक बोर्ड उक्त खंड (ii) तथा खंड (iii), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट अवधि में प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख करेगा।
- (v) अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को बढ़ी हुई अवधि, यदि वसूली की अवधि खंड (iii) के अंतर्गत बढ़ाई गई हो, के अंत में उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन लेने के अधिकार होंगे।
- (vi) यदि उक्त खंड (iii) के अंतर्गत वसूली की अवधि न बढ़ाई गई हो तो अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता उक्त अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों का अवलंबन खंड (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर लेने के हकदार होंगे"।
4. निदेश के पैराग्राफ 8 में उप पैराग्राफ (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा:-
- "(1) प्रतिभूति रसीदें जारी करना:- प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 7(1) और (2) के उपबंधों को, विशेषरूप से इस प्रयोजन से स्थापित किए गए एक या अधिक न्यासों के माध्यम से लागू करेगी। प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को उक्त न्यासों को उसी मूल्य पर हस्तांतरित करेगी, जिस पर वे प्रवर्तक(ऑरीजनेटर) से अर्जित की गई हों"।
5. निदेश के पैराग्राफ 10 में खंड (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा:
- (ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी अपनी बेशी निधियों का निवेश अपने निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार केवल सरकारी प्रतिभूतियों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी ही संस्थाओं की जमाराशियों के रूप में रखेगी"।
6. निदेश के पैराग्राफ 10, खंड (iii) को निम्नलिखित खंड (iii) से प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (iii) कोई भी प्रतिभूतिकरण कंपनी भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी:-

बशर्ते यह प्रतिबंध प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा उसके अपने उपयोग के लिए भूमि और भवन में निवेश करने पर लागू नहीं होगा यदि वह उसकी स्वाधिकृत निधियों के 10 % तक हो;

बशर्ते इसके अलावा यह प्रतिबंध किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा सरफायसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के सामान्य कारोबार के अंतर्गत अपने दावों की पूर्ति के लिए अर्जित भूमि एवं भवन पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते इसके अलावा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के सामान्य कारोबार के दौरान अर्जित भूमि तथा / या भवन अपनी प्रतिभूतियों के हितों के प्रवर्तन के दौरान ऐसे अर्जन की तारीख से पांच वर्ष या बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी की प्राप्तियों के लिए अनुमत विस्तारित अवधि में उनका निपटान कर दिया जाए।

7. निदेश के पैराग्राफ 12(1)(i) में शब्दों परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के बाद तथा निम्नलिखित श्रेणियों/वर्गों के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे:-

"अपनी स्वयं की बहियों में धारित"

8. निदेश का पैराग्राफ 12(1)(ii)(ग) को निम्नवत संशोधित किया जाएगा:

(ग) "हानिगत परिसंपत्ति" यदि (ए) परिसंपत्ति 36 महीने से अधिक अवधि के लिए अनर्जक रहती है, (बी) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने के कारण या प्रतिभूति के उपलब्ध न होने के कारण उसकी वसूली न होने के वास्तविक खतरे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हो; (सी) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी ने या उसके आंतरिक या वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा परिसंपत्ति को "हानिगत परिसंपत्ति" के रूप में पहचाना गया हो; या प्रतिभूति रसीद सहित वित्तीय परिसंपत्ति पैराग्राफ 7(6)(ii) या 7(6)(iii) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित वसूली योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल समय-सीमा में वसूली न जा सकी हो और प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी या उनके ट्रस्ट के पास लगातार धारण रही हो"।

9. निदेश के पैराग्राफ 15(1) में खंड (iv) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़े जाएंगे:

- (v) वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी बहियों या ट्रस्ट की बहियों में अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य;
- (vi) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों से हुई वसूली का मूल्य;
- (vii) वित्तीय वर्ष के अंत में वसूली के लिए शेष वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य;
- (viii) वित्तीय वर्ष के दौरान अंशतः अदा की गई प्रतिभूति रसीदों तथा पूर्णतः अदा हुई प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;
- (ix) वित्तीय वर्ष के अंत में अदा होने के लिए लंबित प्रतिभूति रसीदों का मूल्य;
- (x) पैराग्राफ 7(6)(ii) या 7(6)(iii) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए निर्मित नीति के अंतर्गत वसूली न हो पाने के कारण जिन प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो सकी, उनका मूल्य;
- (xi) परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के (वर्ष-वार) सामान्य कारोबार के अंतर्गत अर्जित भूमि एवं/या भवन का मूल्य।

ए. एस. राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी
(रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत और निदेश, 2003

सं. गैबैपवि नीति प्रभा. (एससी/आरसी)/9/मुमप्र (एसएसआर)-2010--
भारतीय रिजर्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि वित्तीय प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के निवेशकों के हित के लिए हानिकारक ढंग से चलाये जा रहे कार्यलापों या ऐसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी के हित में किसी भी प्रकार से पक्षपाती ढंग से चलाये जा रहे कार्यकलापों को रोकने के लिए; "प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिजर्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश, 2003" को संशोधित करना आवश्यक है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3, 9, 10 तथा 12 एवं इस संबंध में उसे प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देता है कि 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)-2003 में अंतर्विष्ट निदेश, जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है, निम्नवत संशोधित होंगे अर्थात्-

1. निदेश के पैरा 5 में उप पैराग्राफ (v) के बाद निम्नलिखित उप पैराग्राफ (vi) जोड़ा जाएगा।
"(vi) प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक श्रेणी (क्लास) की प्रतिभूति रसीदों में से न्यूनतम 5% प्रतिभूति रसीदें प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी सतत आधार पर तब तक धारण किए रहेगी जब तक कि ऐसी योजना विशेष के अंतर्गत जारी सभी प्रतिभूति रसीदों की अदायगी नहीं हो जाती है।"

ए. एस. राव
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. आर-12/19/आईएसएमबी/98-हित-2--महानिदेशक क.रा.बी. निगम ने अधिसूचना संख्या आर-12/19/1/एसएमबी/98-हित-2 दिनांक 28.06.02 के अतिक्रमण में क.रा.बी. निगम के संकल्प दिनांक 14.12.1980 के साथ पठित क.रा.बी. (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 75 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, गोवा, पुणे, नागपुर, थाणे, मरोल, औरंगाबाद, सूरत और बड़ोदा क्षेत्रों/उप क्षेत्रों के मामलों की जांच करने के क्षेत्राधिकार वाले पश्चिम जोन के लिए व्यावसायिक रोग के कारण होने वाली अपंगता निर्धारित करने के लिए क.रा.बी. अधिनियम की धारा 54 और 54क तथा क.रा.बी. (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 74 के प्रयोजनार्थ क.रा.बी. (साधारण) विनियम 1980 के विनियम 74 के अंतर्गत निम्नानुसार जोनल परिभ्रामी विशेष चिकित्सा बोर्ड का पुनर्गठन किया है :--

- | | |
|---|---------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक | अध्यक्ष |
| क.रा.बी. मॉडल अस्पताल-सह-व्यावसायिक रोग केन्द्र, अंधेरी | |
| 2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी | सदस्य |
| उप निदेशक (एनआईओएच)/सहायक निदेशक (एनआईओएच), अहमदाबाद | |
| 3. चेस्ट विशेषज्ञ | सदस्य |
| क.रा.बी. मॉडल अस्पताल-सह-व्यावसायिक रोग केन्द्र, अंधेरी | |
| 4. आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ | सदस्य |
| क.रा.बी. मॉडल अस्पताल-सह-व्यावसायिक रोग केन्द्र, अंधेरी | |

क.रा.बी. अस्पताल/व्यावसायिक रोग केन्द्र में संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य अथवा पड़ोसी राज्य के अन्य क.रा.बी. अस्पतालों से विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाए।

बी. के. साहू
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. बी-33(13) 20/99-स्था-4--क.रा.बी. (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा-25 के अनुसरण में अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने क्षेत्रीय बोर्ड, क.रा.बी. निगम, जम्मू और कश्मीर के नियोजक प्रतिनिधि में कतिपय परिवर्तन किए हैं।

तदनुसार, निगम की अधिसूचना संख्या बी-33(13) 20/99 स्था. 4 दिनांक 19.02.2010 में क्रम संख्या 6, 7 व 8 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :--

क्रम सं.	क्रम संख्या 6, 7, व 8 पर मौजूदा प्रविष्टि	क्रम सं.	क्रम संख्या 6, 7 व 8 पर प्रस्तावित प्रविष्टि
1.	श्री राकेश भट्ट, महासचिव बाडी ब्राह्मणा उद्योग एसोसिएशन, बाडी ब्राह्मणा, जम्मू।	1.	श्री तेजबीर सिंह रीन, अध्यक्ष, लघु उद्योग एसोसिएशन, गंग्याल, जम्मू।
2.	श्री अनिल गुप्ता, उपाध्यक्ष, लघु उद्योग एसोसिएशन, गंग्याल, जम्मू।	2.	श्री नजीर अहमद डार, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
3.	प्रबंध निदेशक मैसर्स खैबर इंडस्ट्रीज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	3.	श्री वाई. बी. शर्मा, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

सी. एस. केदार
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2010

संख्या: एन-15/13/3/2/2009-यो0 एवं वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1959 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

क्रम सं.	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं.	अंचल कार्यालय	जिला
1.	ओसाम	11	पतरातू	हजारीबाग
2.	पलानी	12	पतरातू	हजारीबाग
3.	उच्चरिंग	14	पतरातू	हजारीबाग
4.	सेल्या	15	पतरातू	हजारीबाग
5.	कटिया	16	पतरातू	हजारीबाग
6.	कोतो	18	पतरातू	हजारीबाग
7.	साकुल	21	पतरातू	हजारीबाग
8.	पतरातू	22	पतरातू	हजारीबाग
9.	जयनगर	25	पतरातू	हजारीबाग
10.	बलकुदरा	26	पतरातू	हजारीबाग
11.	लबगा	29	पतरातू	हजारीबाग
12.	मतकमा	49	पतरातू	हजारीबाग
13.	लादी	53	पतरातू	हजारीबाग

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/2/1/2010-यो0 एवं वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट

चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :-

"जोराबाट (असम), टेपेचीया और सोनापुर क्षेत्रों के सोनापुर मौजा के अंतर्गत आने वाले राजस्व वाले गाँव बर्नी, अम्भेर, सरुतारी और सरुतारी एन.सी. और पानबारी मौजा के अंतर्गत राजस्व वाले गाँव कमारकुची, कमारकुची एन.सी., आमेरीगोग और आमेरीगोग एन.सी."

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/1/10/2009-यो0 एवं वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :

"आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले में कल्वकुर्ती (ता) के मडजिल मण्डल के उरुकोण्डापेट के सीमा में स्थित सभी क्षेत्र ।"

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/15/1/2010-यो0 व वि0

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2010 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :

"बर्धवान जिला में थाना बर्धवान के अंतर्गत फांकीरपूर (जे. एल सं-25), बर्धवान (जे. एल सं-30), आलमगंज (जे. एल सं-31), बेरीपूर (जे. एल सं-32),

मिरछाबा (जे. एल सं-33), जगतबेड़ (जे. एल सं-34), बालीडांगा (जे. एल सं-35), डेलीखाजअनवरबे (जे. एल सं-36), भातछाला (जे. एल सं-37), शंखरीपुकूर (जे. एल सं-38), राधानगर (जे. एल सं-39), बाबूरबाग (जे. एल सं-40), गोडा (जे. एल सं-41), बाहिर सर्ब मंगला (जे. एल सं-42), बामचंदाईपूर (जे. एल सं-74), ईछलाबाद (जे. एल सं-75), कानाईनाथ शाल (जे. एल सं-76), अलिशा (जे. एल सं-77), और गोपालनगर (जे. एल सं-78), के मौजा के क्षेत्रों को सम्मिलित कर "

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

हैदराबाद-500027,

सं. आंप्र/कभनिसं/अकेंआ/आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा/मि.सं. 240/2010/79--

जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-11 की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है (जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है)।

हैदराबाद, दिनांक 20 मई 2010

सं. आंप्र/कभनिसं/अकेंआ/आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा/मि.सं. 240/2010/79--

सा.का.....जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बेंगलूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

अनुसूची - II

1. उक्त स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियाँ संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) के खण्ड (क) के अंतर्गत समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेंगे।
3. लेखाओं का रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत करना, बीमा किस्तों का भुगतान, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे।
5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य हैं और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी आवश्यक किस्त का भुगतान करेंगे।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता, शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामित(ियों) विधिक वारिस(सों) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे।

8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहाँ किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे।
9. अतः किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक बीमा योजना के, जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है, के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है।
10. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोक्ता बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है।
11. यदि नियोक्ता द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परंतु छूट देने के कारण उसके नामिति(यों), विधिक वारिस(सों) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होगा।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य कर मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम मृत सदस्य के नामिति(यों) तथा विधिक वारिस(सों) जो बीमाकृत राशि के हकदार हैं को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

एस. रघुराम
अपर केन्द्रीय भ. नि. आयुक्त
कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
नई दिल्ली

अनुसूची - (1)

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं तिथि	क्षे.का/ उ.क्षे.का	छूट की अवधि	से	तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/34456-मे.उषो- दया पब्लिकेशन्स, नेल्लूर	01.04.2000 01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2003 31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
2.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633ई-मे. अल्ट्राटेक सिमेन्ट वर्क्स कांट्रा- क्टर्स - ई, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
3.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/872 दि. 14.05.1999	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29310-मे.उषो- दया पब्लिकेशन्स, नेल्लूर	01.08.2000 01.08.2003 01.08.2006 01.08.2009	31.07.2003 31.07.2006 31.07.2009 31.07.2012
4.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1898 दि.13.11.1991	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/13177-मे.गोमति स्पिनर्स, चित्तूर	27.07.1993 27.07.1996 27.07.1999	26.07.1996 26.07.1999 26.07.2011
5.	सं.आंप्र/क.भ.नि.सं/अकैआ/ द.अं/एफ.सं.240/2009/ 478 दि.13.11.2009	उक्षेका राजमंड्री	आंप्र/राजमंड्री/4322-मे.ग्लक्सो स्मितक्लाइन कन्स्यूमर हेल्थ केयर लि., धवलेश्वरम	04.08.2009	03.08.2012
6.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633ए-मे.अल्ट्रा टेक सिमेन्ट वर्क्स, कांट्राक्टर्स - ए, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
7.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633जी-मे. अल्ट्राटेक सिमेंट वर्क्स, कांट्रा- क्टर्स -जी, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
8.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633एफ-मे.अल्ट्रा टेक सिमेंट वर्क्स कांट्राक्टर्स - एफ, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
9.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60109-मे.अबाक कन्सट्रक्शन्स, भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
10.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633सी-मे. अल्ट्राटेक सिमेंट वर्क्स, कांट्राक्टर्स -सी, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
11.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633बी-मे. अल्ट्राटेक सिमेंट वर्क्स, कांट्राक्टर्स-बी, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012

12.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60114-मे.कृष्णा केटरिंग सर्विसेस, भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
13.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/29633डी-मे.अल्फ्रा टेक सिमेंट वर्क्स, कांद्राक्टर्स- डी, ताडिपत्री	01.08.2009	31.07.2012
14.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60112-मे.वेलमेक इंजीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
15.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60113-मे.राजा वर्धन एंटरप्राइजेस, भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
16.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60111-मे.क्रेसेंट एरेक्टर्स, भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
17.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/60110-मे.रेफरो टेक इंजीनियर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन्स भोगसमुद्रम	01.08.2009	31.07.2012
18.	सं.आंप्र/क.भ.नि.सं/अर्केआ/ दअं/एफ.सं.240/2009/ दि.21.02.2009	उक्षेका वीएसपी	आंप्र/वीपी/17120-मे.कोरमंडल रोलर फ्लोर मिल्स प्रा.लि., विशाखापट्टणम	01.12.2009	30.11.2012
19.	सं.आंप्र/क.भ.नि.सं/अर्केआ/ दअं/एफ.सं.240/2008 दि.22.03.2008	उक्षेका वीएसपी	आंप्र/वीपी/2760-मे.कोरमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, विशाखापट्टणम	25.09.2009	24.09.2012
20.	सं.आंप्र/क.भ.नि.सं/अर्केआ/ दअं/एफ.सं.240/2007 दि.31.03.2007	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/6980-मे.स्टैनपैक्स इण्डिया लि, नेल्लूर	24.06.2006	23.06.2012
21.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1002 दि.15.10.2004	क्षेका गुंटूर	आंप्र/गुंटूर/27707-मे.इनकैप लिमिटेड, निडमानुर	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
22.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1417 दि.29.12.2004	क्षेका गुंटूर	आंप्र/क्षेका/गुंटूर/21104-मे. असिस्ट, चिलकलूरिपेटा	01.03.2007	28.02.2010
23.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1002, दि.15.10.2004	उक्षेका राजमंड़ी	आंप्र/राजमंड़ी/3802-मे.ए.पी. पेपर मिल्स लिमिटेड, राजमंड़ी	18.09.2003 18.09.2006 18.09.2009	17.09.2006 17.09.2009 17.09.2012
24.	---	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/50238-मे.डर - फेरिट एसिया प्रा.लि, कड़पा	01.07.2006 01.07.2009	30.06.2009 30.06.2012
25.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/152, दि. 31.05.2000	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/6376-मे.रामकृष्णा केमिकल्स लिमिटेड, कड़पा	27.05.2001 27.05.2004 27.05.2007	26.05.2004 26.05.2007 26.05.2010

26.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/4504, दि.13.10.1999	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/2375-मे.डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड, कड़पा	01.11.2000 01.11.2003 01.11.2006 01.11.2009	31.10.2003 31.10.2006 31.10.2009 31.10.2012
27.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/4299, दि.16.9.1999	उक्षेका कड़पा	आंप्र/कड़पा/11617-मे.बालाजी हैचरीस, चित्तूर	01.10.2001 01.10.2004 01.10.2007	30.09.2004 30.09.2007 30.09.2010
28.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2007, 1357,दि.22.3.2008	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/5652-मे.द फेडरेशन ऑफ सेरिकल्चरिस्ट्स एण्ड सिल्क वीवर्स को-ऑप सोसाइटीस लि, जुबली हिल्स, हैदराबाद	01.03.2008	29.02.2011
29.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/23, दि.02.04.2003	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/6327-मे.सिकंदराबाद इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, आर.पी. रोड, सिकंदराबाद/हैदराबाद	01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
30.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2007/ 1357, दि.22.3.2008	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/11579-मे.कोलोरामा प्रिंटर्स प्रा.लि, बेगमपेट, हैदराबाद	01.10.2009	30.09.2012
31.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2007/ 1357 दि.22.3.2008	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/16392-मे.आईटी डबल्यु इंडिया लि(पूर्व में आईटी डबल्यु सिग्नोछ इंडिया लि.) बंजारा हिल्स, हैदराबाद	01.10.2008	30.09.2011
32.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2009/ 719 दि.13.4.2009	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/19691-मे. ए.पी. बीवरेजस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एम.जे.रोड, हैदराबाद	24.06.2009	23.06.2012
33.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1869, दि.12.01.2004	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/20696-मे.श्रीराम एण्टरप्राइजेस, रामंतपुर, हैदराबाद	01.07.2005 01.07.2008	30.06.2008 30.06.2011
34.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/23, दि.02.04.2003	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/20949-मे.स्वामी सन्स (एजन्सीस) प्रा.लि, उप्पल हैदराबाद	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
35.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2009/ 719, दि.13.4.2009	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/22301-मे.बालाजी रेल रोड सिस्टम्स लि, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद	24.06.2009	23.06.2012
36.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2006/ 5419, दि.31.3.2007	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/27473-मे.क्रिस्टल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, उप्पल, हैदराबाद	01.08.2005 01.08.2008	31.07.2008 31.07.2011

37.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/23, दि. 02.04.2003	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/32786-मे.क्यारी फास्ट ट्रान्सपोर्ट, रामंतपुर, हैदराबाद	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
38.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1869, दि.12.01.2004	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/34218-मे.सॉविरीन एण्टरप्राइजेस, रामंतपुर, हैदराबाद	01.07.2005 01.07.2008	30.06.2008 30.06.2011
39.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/50576-मे.रेवा टोलवे प्रा. लि, माघापुर, हैदराबाद	01.07.2008	31.05.2011
40.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/कुकर/32800-मे.राधाकृष्णा हॉस्पिटालिटी सर्विसेस (पी) लि, अमीरपेट, हैदराबाद	01.08.2008	31.07.2011
41.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/2287, दि.26.07.1999	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/1950-मे.निजाम क्लब, सैफाबाद, हैदराबाद	01.12.2001 01.12.2004 01.12.2007	30.11.2004 30.11.2007 30.11.2010
42.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/5836, दि.31.01.2000	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/3562-मे.अलकली मेटल्स लि, उप्पल, हैदराबाद	01.03.2002 01.03.2005 01.03.2008	28.02.2005 29.02.2008 28.02.2011
43.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/गजट/ 09/719 दि.13.4.09	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/3676-मे.एन.एम.डी. सी लि, (भारत सरकार का उप- क्रम) मासंब टैंक, हैदराबाद	28.08.2009	27.08.2012
44.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/2474 दि.9.11.2000	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/3986-मे.मिश्र धातु निगम लि, कंचनबाग, हैदराबाद	14.10.2000 14.10.2003 14.10.2006 14.10.2009	13.10.2003 13.10.2006 13.10.2009 13.10.2012
45.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/23 दि.2.4.2003	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/11891-मे.एसाको प्रा.लि, एस.डी.रोड, सिकंदराबाद	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
46.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/गजट/ 09/719 दि.13.4.09	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/13477-मे.कार्ड बॉक्स कंपनी, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद	01.12.2009	30.11.2012
47.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/16338-मे.एसईडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, बेगमपेट, हैदराबाद	01.07.2009	30.06.2012
48.	सं.आंप्र/कभनिसं/अकैआ/ दअं/एफ.सं.240/2009 दि.13.4.09, गजट दि. 21.02.2009	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/24324-मे.सुराना टेलि कॉम एण्ड पावर लि, (पूर्व में सुराना टेलिकॉम लि,) एस.पी.रोड, सिकंदराबाद	01.12.2009	30.11.2012

49.	सं.ई.पी.एफ.ओ/अकैआ/दअं एफ.सं.240/गजट/09/ 719, दि.13.4.2009	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/26110-मे.श्रीकांत एण्टरप्राइजेस, उप्पल, हैदराबाद	24.06.2006 24.06.2009	23.06.2009 23.06.2012
50.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/995, दि.7.5.2002	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/30633-मे.श्री शक्ति कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट बेगमपेट, हैदराबाद	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
51.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1869, दि.12.1.2004	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/32131-मे.यूनिवर्सल ट्रावेल्स, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद	01.04.2004 01.04.2007	31.03.2007 31.01.2009
52.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1002, दि.15.10.2004	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/32393-मे.सागर पावर लि, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
53.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/26, दि.27.4.2003	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/34893-मे.रेनबो कलर लैब(उषाकिरण मूवीज का एक प्रभाग रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद	01.12.2004 01.12.2007	30.11.2007 31.01.2009
54.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/38291-मे.उषोदया एण्टरप्राइजेस लि,(टेलिविजन प्रभाग) रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद	01.03.2001 01.03.2004 01.03.2007	29.02.2004 28.02.2007 28.02.2010
55.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/43106-मे.रिदम, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद	01.07.2006	31.01.2009
56.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/43170-मे.सिमफनी (उषाकिरण मूवीज लि, का एक प्रभाग) रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद	01.07.2006	31.01.2009
57.	---	क्षेका हैदरा	आंप्र/हैदरा/44363-मे.ए.पी.दलित बहुजन म्युचुअली एडेड को.ऑप सोसाइटीस फेडरेशन लि, (अंकुरम संगमम पोरम) कारखाना, सिकंदरा- बाद-हैदराबाद	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
58.	सं.2/1959/डी.एल.आई/ छूट/89/पार्ट-1/1417, दि.29.12.2004	क्षेका निजामा	आंप्र/निजामा/2411-मे.निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को.ऑप सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, निजामाबाद	24.06.2006	23.06.2009
59.	आंप्र/कभनिसं/अकैआ/आंप्र एवं उड़ीसा/एफ सं.240/ गजट/2009/15 दि.27.2.09	क्षेका निजामा	आंप्र/निजामा/21830-मे.ग्रामाभ्युदया मण्डली, धर्मारम, निजामाबाद जिला	01.03.2008	28.02.2011

भारतीय विधिज्ञ परिषद्
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2010

अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम--2010

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने 30 अप्रैल, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :-

संकल्प संख्या : 73/2010

संकल्प किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद्, उसे ऐसी शर्तें अधिकथित करने की शक्ति न्यस्त होने के कारण, जिसके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा जिससे वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात होगा/होगी। अतः भारतीय विधिज्ञ परिषद् अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने के लिए विधि शिक्षा निदेशालय द्वारा विरचित नियमों का अनुमोदन करती है।

उपर्युक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(क ज) के अधीन विधि व्यवसाय करने की शर्तें:- भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के अध्याय III, भाग VI में निम्नलिखित नियम बनाती है और उन्हें नियम 9 से 11 तक के रूप में अंतः-स्थपित करती है।

- 9 अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बार परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 और आगामी वर्षों में आगे स्नातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विधाथियों के लिए आज्ञापक है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा

10. (1) अखिल भारतीय बार परीक्षा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा आयोजित की जाएगी।

(क) बार परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम दो बार ऐसे मास और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएगी जो

भारतीय विधिज्ञ परिषद् समय समय पर अवधारित करें।

- (ख) बार परीक्षा ऐसे मूल और प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की परीक्षा लेगी जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद् समय समय पर अवधारित करे।
- (ग) ऐसे मूल/प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों (विषयों) और पाठ्यक्रम का भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा प्रकाशन परीक्षा के नियत तारीख से कम-से-कम तीन मास पूर्व किया जाएगा।
- (घ) बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित अंकों का प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (ङ) असफल अधिवक्ता बार परीक्षा में पुनः बैठ सकेगा उसके लिए बैठने की कोई सीमा नहीं होगी।
- (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, विशेषज्ञों की एक समिति की मार्फत, पाठ्यक्रम, सिफारिश किए गए पाठन, परीक्षा पत्र निर्धारकों, माडरेटर्स, मूल्यांककों की नियुक्ति, माडल उत्तरों परीक्षा भवन संबंधी नियमों और अन्य संबंधित विषयों का अवधारण करेगी।
- (छ) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, परीक्षा के लिए रीति और आवेदन-पत्र का प्रपत्र की अवधारण करेगी।
- (ज) बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, अधिवक्ता विधि-व्यवसाय प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा।

विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

- 11.(1) विधि व्यवसाय का प्रमाणपत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा परिणामों की घोषणा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सफल अधिवक्ता के पते पर जारी किया जाएगा।
- (2) विधि व्यवसाय का प्रमाणपत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के अध्यक्ष के हस्ताराधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी किया जाएगा।

एम. डी. जोशी
सचिव

भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 मई 2010

सं. 17-1/2010-पी.सी.आई./3359-3530---भारतीय भेषजी परिषद् के 8 और 9 अप्रैल 2010 को सम्पन्न हुए 85वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

भेषजी डिप्लोमा

प्रस्ताव संख्या 85/पी.सी.आई./1393

(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मैसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
14/17-461/94-पी.सी.आई. के.डी.आर. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक वानापार्थी - 509 103, डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर		60	2011-2012	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
15/17-661/09-पी.सी.आई. जे.जे. कॉलेज ऑफ फार्मैसी, महेश्वरम - 501 359 डिस्ट्रिक्ट आर.आर.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
16/17-87/91-पी.सी.आई. श्री फत्मावती वोमैन्स पॉलीटेक्निक, टी.टी. देवास्थानाम्स, तिरुपति - 517 502.		30	2011-2012	- उपरोक्त -
17/17-541/2008-पी.सी.आई. नालंदा कॉलेज ऑफ फार्मैसी, (पी.ओ.) चारलापल्ली, हैदराबाद रोड़, नालगोण्डा - 508 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
202/17-29/2002-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, मसाब टैंक, हैदराबाद - 500 028.		60	2011-2012	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
203/17-592/2003-पी.सी.आई. श्री सरोजिनी रमुलाम्मा कॉलेज ऑफ फार्मैसी, शेशाद्रीनगर महबूबनगर - 509 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
204/17-584/2009-पी.सी.आई. आर.के.एल.के. डी.फार्मैसी कॉलेज, बिहाईन्ड गाँधी पार्क, सूर्यपेट - 508 213.		60	2010-2011	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
205/17-707/2005-पी.सी.आई. विकास कॉलेज ऑफ फार्सेसी, पुरेला रोड, विस्सान्नापेटा - 521 215. डिस्ट्रिक्ट कृष्णा		60	2011-2012	- उपरोक्त -
206/17-605/05-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्सेसी, अमरावती रोड, गुन्दूर		60	2011-2012	- उपरोक्त -
209/17-736/2005-पी.सी.आई. सासीकांत रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्सेसी, नोर्थराजूपालेम, कोडावलूर (वी एण्ड एम), नेलौर (डिस्ट्रिक्ट)		60	2012-2013	- उपरोक्त -
210/17-582/2003-पी.सी.आई. गोकाराजू रंगाराजू कॉलेज ऑफ फार्सेसी, बाचूपल्ली, मियापुर, हैदराबाद - 500 050.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
211/17-591/2009-पी.सी.आई. अन्नमाचार्य कॉलेज ऑफ फार्सेसी, न्यू बोयानापल्ली, राजमपेट - 516 126. डिस्ट्रिक्ट कडापा		60	2011-2012	- उपरोक्त -
212/17-589/2003-पी.सी.आई. वागदेवी कॉलेज ऑफ फार्सेसी एण्ड रिसर्च सेन्टर, ब्रह्मादेवम, मडूकूर मण्डल, नेलौर डिस्ट्रिक्ट - 524 346.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
329/17-646/2004-पी.सी.आई. विश्वमन्ना एजुकेशनल सोसायटी वागदेवी कॉलेज ऑफ फार्सेसी, # 2-2-457/3, रामनगर, हनमकोण्डा, वारंगल - 506 001.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
395/17-183/1999-पी.सी.आई. श्री जी. पुल्ला रेड्डी गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक, बी. थान्द्रापाडू पी.ओ., कुरनूल - 518 002.		60	2010-2011	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7 वां तल, टैंक बन्द मार्ग, हैदराबाद - 500 063.
396/17-580/2010-पी.सी.आई. विश्व भारती कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एन.आर.टी. रोड, पेरेचेरला, गुन्दूर - 522 009.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
बिहार				
18/17-16/2009-पी.सी.आई. गवर्नमेन्ट फार्मेसी इन्स्टीट्यूट आगमकुआ, पी.ओ. गुलजारबाग, पटना - 800 007.		60	2007-2008 से 2011-2012 तक	अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक (डिप्लोमा इन फार्मेसी) डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मैडिकल एजुकेशन एण्ड फैमेली वेलफेअर पटना - 800 001.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक बाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
चण्डीगढ़				
398/17-147/2009-पी.सी.आई. श्री गुरु गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सैक्टी - 26, चण्डीगढ़ - 160 026.		60	2012-2013	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर-36-ए, चण्डीगढ़
छत्तीसगढ़				
19/17-590/03-पी.सी.आई. श्रीमती एल.एल. त्रिवेदी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर - 495 009.		60	2011-2012	निबन्धक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर - 495 009.
20/17-857/08-पी.सी.आई. खंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड रिसर्च, कुरुड रोड, कोहाका, भिलाई - 491 024.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नोर्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8, भिलाई - 490 009.
213/17-740/2005-पी.सी.आई. कोलम्बिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विलेज - टेकरी पोस्ट गिरोड मथार सिमेंट फैक्ट्री, नियर विधान सभा, रायपुर - 493 111.		60	2012-2013	- उपरोक्त -
214/17-758/2008-पी.सी.आई. मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नव दुर्गा नगर, मैथपुरैना रायपुर		60	2012-2013	- उपरोक्त -
गोवा				
21/17-41/2002-पी.सी.आई. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 18 वां जून रोड, सेंट इनेज पणजी		60	2013-2014	निबन्धक गोवा सरकार तकनीकी शिक्षा निदेशालय तकनीकी परीक्षा समिति गोवा एस आई ई. भवन, आल्टो प्रोविरम पणजी - गोवा
गुजरात				
22/17-27/94-पी.सी.आई. श्री एम.एन. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, श्री बी.डी. राव कॉलेज कैम्पस, खम्भाट - 388 620, डिस्ट्रिक्ट आनन्द		120	2011-2012	निबन्धक गुजरात विश्वविद्यालय नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई, 2008 को और आगे)

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
23/17-203/02-पी.सी.आई. श्री बी.एम. शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज कैम्पस, मोदासा - 383 315, डिस्ट्रिक्ट सबरकंठा		60	2011-2012	उप निबन्धक हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय राजमहल रोड़ पो० बॉक्स नम्बर 21 पाटन - 384 265. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई, 2008 को और आगे)
331/17-769/2009-पी.सी.आई. डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेज, रामपुरा, पोस्ट कनकपुर ताल्लुक गोधरा-डिस्ट्रिक्ट - 389 001.		60	2012-2013	निबन्धक गुजरात विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा अहमदाबाद - 380 009. (2005-06 से 2007-08) निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (जुलाई, 2008 को और आगे)
400/17-61/2005-पी.सी.आई. बी.के. मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, पॉलीटेक्निक कैम्पस, नियर अजि धाम भावनगर रोड़, राजकोट - 360 003.		60	2011-2012	निबन्धक सौराष्ट्र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, कलावद मार्ग, राजकोट - 360 005. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई, 2008 को और आगे)
हरियाणा				
24/17-164/2006-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, मण्डी आदमपुर, हिसार - 125 052.		60 (2008-2009 शै०सत्र से 45 से 60 दाखिलों में वृद्धि)	2011-2012	निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य समिति, हरियाणा, एस.सी.ओ. नम्बर 38-39, सैक्टर - 17-ए, चण्डीगढ़ - 160 017.
25/17-224/2004-पी.सी.आई. लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर सिविल हॉस्पिटल सिरसा - 125 055.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
216/17-644/2009-पी.सी.आई. बी.एस. अनंगपुरिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आलमपुरा बल्लभगढ़-सोहना रोड़, फरीदाबाद		60	2012-2013	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
402/17-811/2007-पी.सी.आई. आर.के.एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बाला रोड़, कैथल - 136 027.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
हिमाचल प्रदेश				
27/17-281/94-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, कांडाघाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन - 173 215.		30	2011-2012	सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, 287, सिविल लाईन्स, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा - 176 215.
403/17-735/2009-पी.सी.आई. शांति निकेतन पॉलीटेक्निक (डी.फार्मेसी), विलेज मालथर, पी.ओ. रत्ती, डिस्ट्रिक्ट मण्डी		60	2012-2013	- उपरोक्त -
कर्नाटक				
29/17-767/2006-पी.सी.आई. बंगलौर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एण्ड रिसर्च (बीपर), # 12, कोगिलू मेन रोड़, येलाहंका, बंगलौर - 64.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
30/17-744/05-पी.सी.आई. राजीव ममोरियल एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बालाजी नगर, ओल्ड जेवारगी रोड़, डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा - 585 102.		60	2011-2012	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
32/17-267/06-पी.सी.आई. बी.ई.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी 16 वां, 4 मेन ब्लॉक जया नगर, बंगलौर - 560 011.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
33/17-237/99-पी.सी.आई. श्री जगद्गुरु मल्लिकार्जुन मुरुघराजेन्द्रा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चित्रदुर्ग - 577 502.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
34/17-220/2003-पी.सी.आई. टी.एम.ए.ई. सोसायटीज एम.एम.जे.जी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लक्ष्मेश्वर - 582 116, डिस्ट्रिक्ट गदाग		40	2011-2012	- उपरोक्त -
35/17-190/2009-पी.सी.आई. मिलिंद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जे.सी. नगर, डब्लू सी. रोड़, पाईपलाईन रोड़, महालक्ष्मी पोस्ट, बंगलौर - 560 086.		60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
36/17-393/2007-पी.सी.आई. एच.एम.एस कॉलेज ऑफ फार्मसी, एच.एम.एस एजुकेशन सोसायटी कैम्पस, शेहीहल्ली रोड, तुमकूर - 572 102.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
37/17-295/2009-पी.सी.आई. यू.वी.के. गौतम कॉलेज ऑफ फार्मसी, सुल्तानपाल्या आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर - 560 032.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
38/17-102/1996-पी.सी.आई. आर.आर.के. समितिज किशनलाल पाण्डे कॉलेज ऑफ फार्मसी नौबाद बीदर - 585 402.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
332/17-603/2004-पी.सी.आई. प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ फार्मसी, कोटांगेरे, डिस्ट्रिक्ट तुमकूर - 572 129.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
केरल				
40/17-228/99-पी.सी.आई. ए.एम. कॉलेज ऑफ फार्मसी, ववाकायू पोस्ट, कस्सापल्ली, डिस्ट्रिक्ट कोल्लम - 690 528.		90	2011-2012	अध्यक्ष डी.फार्म. परीक्षा समिति चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, पी.ओ. मैडिकल कॉलेज, थिरुवनन्थापुरम - 695 011.
41/17-513/2002-पी.सी.आई. ए.जे. कॉलेज ऑफ फार्मसी, थोनाक्कल पोस्ट ऑफिस, थिरुवनन्थापुरम - 695 137.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
42/17-32/99-पी.सी.आई. गवर्नमेन्ट कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, मैडिकल कॉलेज, कालिकट, कोझिकोडे - 673 008.		50	2011-2012	- उपरोक्त -
217/17-357/95-पी.सी.आई. प्रियदर्शनी इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईंसिज, मैडिकल कॉलेज, पी.ओ. थिरुवनन्थापुरम - 695 011.		40	2010-2011	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
मध्य प्रदेश				
43/17-505/03-पी.सी.आई. देवी अहिलया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 8/1 उषागंज, नियर जोरा कम्पाउंड, इन्दौर - 452 001.		60	2011-2012	निबंधक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गोंधी नगर भोपाल - 462 036.
45/17-217/2005-पी.सी.आई. क्लानिकेतन पॉलीटेक्निक कॉलेज, नोर्थ सिविल लाईन्स, जबलपुर - 482 001.		60 (2008-2009 शै०सत्र से 40 से 60 दाखिलों में वृद्धि)	2011-2012	- उपरोक्त -
220/17-728/2008-पी.सी.आई. सागर इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी-फार्मेसी, अयोध्या बाई पास रोड, भोपाल - 462 041.		60	2009-2010	- उपरोक्त -
221/17-737/2008-पी.सी.आई. एन.आर.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी, 3, सज्जन सिंह नगर, ऑपोजिट पटेल नगर, रायसोन रोड, भोपाल		60	2009-2010	- उपरोक्त -
222/17-747/2005-पी.सी.आई. महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टडीज, बिहाईड एअर स्ट्रीप, दताना, देवास रोड, उज्जैन - 456 664.		60	2010-2011	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
महाराष्ट्र				
46/17-844/08-पी.सी.आई. श्री के.आर.पांडव इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बहादुरा, नियर दिघोरी नाका, उमरेड रोड, पोस्ट - विहिरगाँव - 441204 नागपुर		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
47/17-546/2007-पी.सी.आई. एन.डी.एम. विद्या प्रसारक समाज इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मैडिकल कॉलेज कैम्पस, वसंत दादा नगर, अदगाँव नासिक - 422 003.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
49/17-823/2007-पी.सी.आई. श्री अमोलक जैन विद्या प्रसारक मण्डलस फार्मेसी कॉलेज, ए/पी कड़ा, ताल्लुक-अशती, डिस्ट्रिक्ट बीद - 414 202.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
51/17-807/2007-पी.सी.आई. डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज, जनता हाई स्कूल कैम्पस, नाईगाँव (बी जैड), ताल्लुक नाईगाँव नानडेड		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
53/17-186/2003-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बोरगाँव (मेघे), वर्धा - 442 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
54/17-548/09-पी.सी.आई. लोकमान्य तिलक शिक्षण संस्थाज जे.एल. चतुर्वेदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (डिप्लोमा), ओल्ड बागदगंज, भण्डारा रोड, नागपुर - 440 008.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
56/17-794/2007-पी.सी.आई. आदर्श इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, भवानीनगर, वीटा, ताल्लुक खानपुर, डिस्ट्रिक्ट सांगली - 415 311.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
57/17-810/2007-पी.सी.आई. श्री संतकृपा शिक्षा संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मसी, (डी.फार्म.), धोगाँव (शिवाजी नगर), ताल्लुक - कराड़, डिस्ट्रिक्ट सतारा		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
58/17-98/98-पी.सी.आई. गीतादेवी खंडेलवाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, गोडबोले प्लॉट्स दाबकी रोड, अकोला - 444 002.		60 (2009-2010 के दौरान एक अतिरिक्त दाखिला)	2011-2012	- उपरोक्त -
59/17-609/2004-पी.सी.आई. जे.एस.पी.एम. जयवंत इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, स० नम्बर 82/3, पुणे-मुम्बई बाईपास हाईवे, नियर वकाद पोलिस चौकी ताथावाडे, पुणे - 411 033.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
61/17-276/98-पी.सी.आई. जे.ई.एस. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी जे.ई.एस. कॉलेज कैम्पस, दुर्गामाता रोड, जालना - 431 203.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
62/17-142/2005-पी.सी.आई. श्री स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्थाज कोल्हापुर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, शिक्षण महवि डॉ० बापूजी सलुंखे कॉलेज कैम्पस, मिराज, डिस्ट्रिक्ट सांगली - 416 410 (पहले इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, मिराज मैडिकल सैन्टर, मिराज)		60	2010-2011	- उपरोक्त -
63/17-791/2007-पी.सी.आई. लोकसेवा कॉलेज ऑफ फार्मसी फूलगाँव, पुणे, एस.नम्बर 200/1बी, फूलगाँव, (मार्कल फटा नगर रोड), ताल्लुक-हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 216.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
223/17-867/2008-पी.सी.आई. द्वारका इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, एट-मालविहिर, बोधा रोड, बुलदाना - 443 001.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
224/17-847/2008-पी.सी.आई. श्रीराम शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट पोस्ट : पानी, ताल्लुक मालसिरस, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर - 413 113.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
225/17-848/2008-पी.सी.आई. गोदावरी शिक्षण मण्डलस, एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नियर निसारगा रो हाउस, पथारदी रोड, नासिक - 422 010.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
226/17-871/2008-पी.सी.आई. मातोश्री एजुकेशन सोसायटीज एम.ए.बी.डी. डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पोस्ट-बभूलगाँव, ताल्लुक योला, डिस्ट्रिक्ट नासिक		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
227/17-845/2008-पी.सी.आई. आनन्द चैरिटेबल सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गंगाई नगर, आशती, ताल्लुक-आशती, डिस्ट्रिक्ट बीद - 414 203.		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
228/17-861/2008-पी.सी.आई. जी.एच. रायसोनी इन्स्टीट्यूट ऑफ लाईफ साईंसिज, बिड महासाला, हिंगना रोड, नागपुर		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
229/17-843/2008-पी.सी.आई. पूना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशंस शकरराव उर्सल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (डिप्लोमा) एस. नम्बर 15/1ए/1/1, बिहाईड जेनसर आई.टी. यावर, खराडी, ताल्लुक हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
230/17-623/2009-पी.सी.आई. श्री गुलाबराव दिओकर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च सेंटर, 2 फ्लोर, नियर डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर मार्केट, जलगाँव - 425 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
231/17-655/2009-पी.सी.आई. सैन्ट्रल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, नियर गोधानी रेलवे, गोधानी, नागपुर - 441 111.		60	2012-2013	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
232/17-284/99-पी.सी.आई. सतारा एजुकेशन सोसायटीज सतारा पोलिटेक्निक, मंगलवार पैठ, सतारा - 415 002.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
233/17-858/2008-पी.सी.आई. अमृतवाहिनी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, संगमनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, पी.ओ. संगमनेर (एस के).		60	2006-2007 से 2011-2012 तक	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यादव जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
236/17-601/2006-पी.सी.आई. विशाल जूनार सेवा मण्डलस इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी फॉर वॉमैन, अले, ताल्लुक - जूनार डिस्ट्रिक्ट पुणे		60	2011-2012	- उपरोक्त -
उड़ीसा				
65/17-482/2006-पी.सी.आई. वोमैन पोलिटेक्निक, प्लॉट नम्बर 1, चन्द्रशेखरपुर, नियर जैवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर - 751 023.		60	2011-2012	परीक्षा नियंत्रक तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण राज्य परिषद्, ईकाई - VIII, नियर राज भवन, भुवनेश्वर - 12
66/17-633/04-पी.सी.आई. माखति फार्मेसी कॉलेज, एट-कालीमन्दिर चौक, बारगढ़ - 768 028.		40	2010-2011	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्चेस्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
240/17-575/2009-पी.सी.आई. जेपोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एट/पी.ओ. रोन्डापाली, जेपोर - 764 002 डिस्ट्रिक्ट कोरापुट		60	2011-2012	- उपरोक्त -
335/17-660/2009-पी.सी.आई. शिवनंदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर इंजिनियरिंग स्कूल स्कवेअर, एल.बी. शास्त्री मार्ग, बेरहमपुर, डिस्ट्रिक्ट गंजम - 760 010.		60	2012-2013	- उपरोक्त -
336/17-578/2003-पी.सी.आई. ओम साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड हेल्थ साईंसिज, गोपालपु-ऑन-सी, डिस्ट्रिक्ट गंजम - 761 002.		60	2012-2013	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
337/17-403/2003-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड टैकनोलॉजी, पद्मापुर, एट/बहादुरलापटना, पी.ओ. बहुग्राम, कटक - 754 200.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
405/17-193/2007-पी.सी.आई. कनक मंजरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. छिंड, राउरकेला, डिस्ट्रिक्ट सुन्दरगढ़		60	2011-2012	- उपरोक्त -
पंजाब				
67/17-749/2006-पी.सी.आई. श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बधानी, पठानकोट - 145 001.		60	2011-2012	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सैक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
241/17-761/2006-पी.सी.आई. गुरु नानक इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, डालेवाल (भूगा), पी.ओ. हरिआना, तहसील एण्ड डिस्ट्रिक्ट - 146 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
242/17-328/94-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज, भटिंडा - 151 001.		30	2010-2011	- उपरोक्त -
243/17-503/2000-पी.सी.आई. जनक राज महाजन आदर्श भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डलहौजी रोड, पठानकोट - 145 001.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
244/17-507/2002-पी.सी.आई. बाबा ईशर सिंह पॉलीटेक्निक, धर्मकोट रोड़ (मोगा), कोट-से-खान - 148 026.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
245/17-768/2009-पी.सी.आई. ओंकार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सजुमा, पी.ओ. नगरा, नियर भिवानीगढ़, डिस्ट्रिक्ट संगरूर - 148 026.		60	2012-2013	- उपरोक्त -
338/17-885/2009-पी.सी.आई. पंजाब मल्टीपर्सन मैडिकल इन्स्टीट्यूट, विलेज पोस्ट ऑफिस सेहना - 148 103 डिस्ट्रिक्ट बरनाला		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
339/17-772/2009-पी.सी.आई. गुरु हरगोविन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रायकोट (लुधियाना), ऑपोजिट रिलीयन्स पेट्रोल पम्प), बरनाला रोड़, गोंडवाल, रायकोट - 141 109.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
राजस्थान				
69/17-68/03-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, एस.एम.एस. मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैम्पस, जयपुर - 302 002.		60	2011-2012	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, स्वाई रामसिंह रोड़, ऑपोजिट एस.एम.एस.अस्पताल जयपुर - 302 001.
70/17-771/06-पी.सी.आई. आकाशदीप कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सेक्टर-11, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर - 302 020.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
72/17-280/94-पी.सी.आई. परमानन्द कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, गजसिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर - 335 024.		60	2011-2012	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, स्वाई रामसिंह रोड़, ऑपोजिट एस.एम.एस.अस्पताल जयपुर - 302 001.
246/17-712/2005-पी.सी.आई. रिजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई एस आई - 7, रिको इन्स्टिट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, जयपुर - 302 022.		60	2009-2010	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, कुम्भा मार्ग सेक्टर-18, प्रताप नगर टोक रोड़, जयपुर - 302 003.
247/17-555/06-पी.सी.आई. संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, खेतरी विलेज राजोटा, डिस्ट्रिक्ट झुनझुनू		60	2011-2012	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
248/17-348/98-पी.सी.आई. महर्षि अरविन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी अम्बानी सर्कल, जयपुर		60	2011-2012	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, स्वाई रामसिंह रोड़, ऑपोजिट एस.एम.एस.अस्पताल जयपुर - 302 001.
तमिलनाडु				
76/17-423/2003-पी.सी.आई. टेकसिटी कॉलेज ऑफ पैरामैडिकल साइंसिज, ऑपोजिट दू कल्लुपारायान कोर्डल, पोडानूर मैन रोड़, कोयम्बटूर - 641 023.		40	2011-2012	निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 162, पून्नामल्ली हाई रोड़, किल्पोक, चेन्नई - 600 010.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
77/17-467/2006-पी.सी.आई. रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामैडिकल साइंसिज, 15/177, मराप्पलम, मुदक्काराय, कोयम्बटूर - 641 105.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
78/17-261/2006-पी.सी.आई. के.के. कॉलेज ऑफ फार्मसी, के.आर.ए. कैम्पस, 1/161, संकरालिंगनार रोड, गेरुगमबक्कम, चेन्नई - 602 101.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
407/17-149/2002-पी.सी.आई. पेरियार कॉलेज ऑफ फार्म. साइंसिज फॉर गर्ल्स, पेरियार सेंटिनरी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स स्थानूर मैन रोड, तिरुचिरापल्ली - 620 021.		60	2012-2013	- उपरोक्त -
उत्तराखण्ड				
79/17-66/2003-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, द्वाराहाट, अल्मोड़ा - 263 653.		40	2011-2012	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, सामने शिव मन्दिर, रुड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
80/17-136/2005-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, श्रीनगर, गढ़वाल - 246 174.		40	2011-2012	- उपरोक्त -
408/17-298/2002-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, नैनीताल - 263 001.		40	2010-2011	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, उत्तरांचल, 37/3, सिविल लाईन्स, सामने शिव मन्दिर, रुड़की - 247 667 डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार
उत्तर प्रदेश				
82/17-754/2009-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ फार्मसी, इन्स्टीग्रल यूनिवर्सिटी, दसौली, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226 026.		60	2010-2011	निबन्धक, इन्स्टीग्रल विश्वविद्यालय दसौली, कुर्सी रोड, लखनऊ - 226 026.
83/17-567/03-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी, बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, झांसी - 284 128.		60	2011-2012	निबन्धक, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय कानपुर रोड, झांसी - 284 128.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
251/17-55/2007-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मसी, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा - 282 002.	60	2008-2009	सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय, 5, सर्वपल्ली मार्ग, एवेन्यू रोड़, लखनऊ - 226 001.
252/17-821/2007-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मसी, इत्तौरा, चन्देश्वर, आजमगढ़ - 276 128.	40	2007-2008 से 2010-2011 तक	सचिव, तकनीकी शिक्षा समिति, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, 1, बांसमण्डी, चीराहा, लखनऊ - 226 001.
पश्चिम बंगाल			
84/17-552/99-पी.सी.आई. श्री रामकृष्ण शिल्प विद्यापीठ (गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक), पी.ओ. सूरि, डिस्ट्रिक्ट बिरभूम - 731 101.	30	2011-2012	सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् “कोलकाता कारिगोरी भवन” द्वितीय तल, 110, एस.एन. बनर्जी रोड़, कोलकाता - 700 013.
85/17-10/98-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी - 735 101.	60	2011-2012	सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य चिकित्सा संकाय 5, लॉयस रेंज (तृतीय तल), कोलकाता - 700 001.

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

भेषजी डिग्री

प्रस्ताव संख्या 85/पी.सी.आई./1394

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश			
15/32-472/08-पी.सी.आई. जे.जे. कॉलेज ऑफ फार्मसी, महेश्वरम - 501 359 रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
17/32-166/98-पी.सी.आई. नालंदा कॉलेज ऑफ फार्मसी (पी.ओ.) चालापल्ली, हैदराबाद रोड, नालगोंडा - 508 001.	60	2011-2012	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 007.
86/32-496/2008-पी.सी.आई. त्रिनीति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, पेड्डापल्ली, डिस्ट्रिक्ट करीमनगर - 505 172.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक कक्कालिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
87/32-393/09-पी.सी.आई. श्री कृष्ण चैतन्य कॉलेज ऑफ फार्मसी, निम्मनापल्ली रोड, गंगानगरीपल्ली (विलेज) मदनापल्ली - 517 325 डिस्ट्रिक्ट चित्तूर	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, अनन्थापुर - 515 002.
89/32-369/06-पी.सी.आई. श्री विद्यानिकेतन कॉलेज ऑफ फार्मसी, श्री साईनाथ नगर, ए. रंगमपेट, (नियर तिरुपति) चन्दागिरी (एम), चित्तूर डिस्ट्रिक्ट	60	2011-2012	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
98/32-373/09-पी.सी.आई. आदित्य इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज एण्ड रिसर्च, आदित्य नगर, ए डी बी रोड, पेड्डापुरम, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट सुरापलेम - 533 437.	60	2011-2012	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर विशाखापट्टनम - 530 063.
100/32-256/09-पी.सी.आई. भारत इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी, मंगलपल्ली विलेज, इब्राहिमपट्टनम (मण्डल), डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी - 501 510.	60	2011-2012	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
102/32-350/2006-पी.सी.आई. महाराजा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फूल बाग, विजियानगरम - 535 002. (पहले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसीज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एण्ड महाराजा कॉलेज, फूल बाग, विजियानगरम - 535 002 के नाम से जाना जाता था)	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर विशाखापट्टनम - 530 063.
104/32-372/2006-पी.सी.आई. माला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसाम्मागुडा, धूआलापल्ली पोस्ट, वाया हकीमपैट, सिकन्दराबाद - 500 014.	60	2011-2012	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 007.
105/32-462/2008-पी.सी.आई. जयामुखी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोक्कुमपुरम (विलेज), चेन्नारावपैट (मण्डल), वाया नरसैमपैट, डिस्ट्रिक्ट वारंगल - 506 332.	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 012.
108/32-495/2008-पी.सी.आई. ब्राउनस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्मापालेम (विलेज), नियर थानीकेल्ला, कोनीजेरला (मण्डल), खमाम - 507 305.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
110/32-422/2007-पी.सी.आई. गीताम इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (पहले कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गीताम), गीताम यूनिवर्सिटी, गांधीनगर कैम्पस, रुशिकोण्डा, विशाखापट्टनम - 530 045.	60	2006-2007 से 2011-2012 तक	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर विशाखापट्टनम - 530 063. (2006-2007 एवं 2007-2008) निबन्धक गीताम विश्वविद्यालय, गांधीनगर परिसर, रुशिकोण्डा, विशाखापट्टनम - 530 045. (2008-2009 से)
203/32-223/2009-पी.सी.आई. श्रीमती सरोजिनी रमुलम्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शेशाद्रीनगर, महबूबनगर - 509 001.	60	2011-2012	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
206/32-231/05-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमरावली रोड, गुन्डूर	60	2011-2012	निबन्धक आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय नागार्जुन नगर, गुनदूर - 522 510.
211/32-331/2005-पी.सी.आई. अन्नामाचार्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी, न्यू बोयनापल्ली, राजमपैट - 516 126, डिस्ट्रिक्ट कडापा	60	2011-2012	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
262/32-432/2008-पी.सी.आई. विकास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सूर्यपैट, नालगोण्डा रवनीगुडेम (विलेज),	60	2012-2013	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
264/32-465/2009-पी.सी.आई. श्री वासवी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, पेडातादेपल्ली, ताडेपल्लीगुडेम, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट गोदावरी	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक आन्ध्रा विश्वविद्यालय, वाल्टेयर विशाखापट्टनम - 530 063.
329/32-210/2000-पी.सी.आई. विश्वम्भरा एजुकेशनल सोसायटी, वागदेवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 2-2-457/3, रामनगर, हनमकोण्डा, वारंगल - 506 001.	60	2010-2011	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
350/32-391/2009-पी.सी.आई. श्रीकृपा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, विलेज वेलकट्टा, मण्डल : कोण्डापक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट मैडाक - 502 227.	60	2011-2012	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद - 500 007.
396/32-222/2001-पी.सी.आई. विश्व भारती कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एन.आर.टी. रोड, पेरेचेरला, गुन्टूर - 522 009.	60	2011-2012	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
415/32-457/2010-पी.सी.आई. वागेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिसाईड एल.एम.डी. पोलिस स्टेशन, करीमनगर - 505 481.	60	2010-2011	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
420/32-455/2010-पी.सी.आई. केअर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओगलापुर (विलेज), आत्माकुर (मण्डल), डिस्ट्रिक्ट वारंगल - 506 006.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
455/32-582/2009-पी.सी.आई. श्री दत्ता इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, शेरिगुडा (विलेज), इब्राहिमपट्टनम (मण्डल), रंगा रेड्डी (डिस्ट्रिक्ट) - 501 510.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.
456/32-338/2010-पी.सी.आई. एस.आर.आर. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, वल्मापुर (विलेज), इल्काथूरथी (मण्डल), कर्मनगर डिस्ट्रिक्ट - 505 476.	60	2010-2011	निबन्धक ककातिया विश्वविद्यालय, विद्यारन्यापुरी, वारंगल - 506 009.
असम			
111/32-35/91-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, दिबरुगढ़ यूनिवर्सिटी, दिबरुगढ़ - 786 004.	40	2013-2014	निबन्धक दिबरुगढ़ विश्वविद्यालय, दिबरुगढ़ - 786 004.
बिहार			
363/32-38/94-पी.सी.आई. बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, न्यू बैली रोड, दानापुर, पटना - 801 503.	30	2010-2011	निबन्धक मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया - 824 234.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
चण्डीगढ़			
353/32-3/91-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ - 160 014.	55	2014-2015	निबन्धक पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ - 160 014.
छत्तीसगढ़			
19/32-235/02-पी.सी.आई. एस.एल.टी. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुरु धासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर - 495 009.	60	2011-2012	निबन्धक गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर - 495 009.
265/32-308/2006-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	60	2012-2013	निबन्धक पं० रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, बिलासपुर - 492 010.
266/32-475/2009-पी.सी.आई. श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बिहाईन्ड होलीडे रिसोर्ट, नियर पावर ग्रिड कॉलोनी, कुम्हारी, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग	60	2004-2005 से 2012-2013 तक	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नोर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई - 490 009.
267/32-519/2008-पी.सी.आई. कोलम्बिया इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, टेकरी, रायपुर - 493 111.	60	2006-2007 से 2012-2013 तक	- उपरोक्त -
गोवा			
21/32-21/2009-पी.सी.आई. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 18 वां जून रोड, सेंट इनेज, पणजी	60	2013-2014	निबन्धक गोवा विश्वविद्यालय, तालीगाव प्लेटीयू पणजी - गोवा
गुजरात			
113/32-356/2009-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी, सारखेज-गौधीनगर हाईवे, अहमदाबाद - 382 481.	60	2010-2011	निबन्धक निरमा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सारखेज-गौधीनगर हाईवे, अहमदाबाद - 382 481.
114/32-282/09-पी.सी.आई. मालिबा फार्मेसी कॉलेज, गोपाल विद्यानगर कैम्पस, बारदौली - महुवा रोड, ताल्लुक महुवा, तारसादी, डिस्ट्रिक्ट सुरत - 394 350.	60	2011-2012	निबन्धक वीर नारमद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर मार्ग, उधाना-मगदल्ला मार्ग, सुरत - 395 007. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई 2008 से और आगे)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
117/32-352/2006-पी.सी.आई. सिगमा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, एट पोस्ट : बकरोल, अजवा निमेता रोड़, ऑपोजिट माधवनगर, ताल्लुक वघोड़िया, डिस्ट्रिक्ट वड़ोदरा	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबन्धक वीर नारमद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, उद्याना-मगदल्ला रोड़, सूरत - 395 007. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई 2008 से और आगे)
269/32-505/2008-पी.सी.आई. एल.जे. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी, ओकाफ विलेज, नियर नागदेव कल्याण मन्दिर, एस.जी. हाईवे सनंद क्रॉस रोड़, अहमदाबाद	60	2004-2005 से 2012-2013 तक	निबन्धक गुजरात विश्वविद्यालय नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009.
400/32-54/2005-पी.सी.आई. बी.के. मोदी गवर्नमेंट फार्मैसी कॉलेज, पोलीटेकनिक कैम्पस, नियर अजि धाम भावन्नगर रोड़, राजकोट - 360 003.	60	2011-2012	निबन्धक सौराष्ट्र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, कलावद मार्ग, राजकोट - 360 005. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई, 2008 को और आगे)
425/32-479/2009-पी.सी.आई. विद्याभारती ट्रस्ट कॉलेज ऑफ फार्मैसी, उमरख एट एण्ड पी.ओ. उमरख, बारदौली मोटा रोड़, ताल्लुक बारदौली डिस्ट्रिक्ट सूरत - 394 345.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबन्धक वीर नारमद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर मार्ग, उद्याना-मगदल्ला मार्ग, सूरत - 395 007. निबन्धक गुजरात विश्वविद्यालय नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009.
426/32-201/2009-पी.सी.आई. श्री सार्वजनिक फार्मैसी कॉलेज, नियर अरविन्द बाग, मेहसाना - 384 001.	60	2012-2013	निबन्धक हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पो.बॉक्स नं० 21, विश्वविद्यालय मार्ग पाटन - 384 265. (1998 से 2008) निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई 2008 से और आगे)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
हरियाणा			
122/32-411/2007-पी.सी.आई. यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 136 119.	60	2003-2004 से 2011-2012 तक	निबन्धक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 136 119.
123/32-184/99-पी.सी.आई. हिन्दू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गोहाना रोड़, नियर पंचायत भवन, सोनीपत - 131 001.	60	2011-2012	निबन्धक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.
216/32-335/2005-पी.सी.आई. बी.एस. अनंगपुरिया इन्स्टीट्यूट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आलमपुर, बल्लभगढ़-सीहना रोड़, फरीदाबाद - 121 004.	60	2012-2013	निबन्धक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.
270/32-389/2009-पी.सी.आई. पी.डी.एम. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर - 124 507.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
402/32-436/2007-पी.सी.आई. आर.के.एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अम्बाला रोड़, कैथल - 136 027.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र - 136 119.
428/32-177/99-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्म. साइंसिज, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक -124 001.	60	2010-2011	निबन्धक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक -124 001.
हिमाचल प्रदेश			
125/32-527/09-पी.सी.आई. अभिलाषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टांडा पी.ओ. बाली, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मण्डी	60	2006-2007 से 2011-2012 तक	निबन्धक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, “शैक्षणिक शाखा” शिमला - 5.
कर्नाटक			
29/32-426/2007-पी.सी.आई. बंगलौर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एण्ड रिसर्च (बीपर), # 12, कोगिलू मेन रोड़, येलाहंका, बंगलौर - 64.	60	2006-2007 से 2010-2011 तक	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
30/17-130/00-पी.सी.आई. राजीव ममोरियल एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बालाजी नगर, ओल्ड जेवारगी रोड़, डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा - 585 102.	40	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
35/32-132/2009-पी.सी.आई. मिलिंद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, जे०सी० नगर, डब्लू.सी. रोड, पाइपलाइन रोड, महालक्ष्मी पोस्ट, बंगलौर - 560 086.	40	2011-2012	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
37/32-120/2009-पी.सी.आई. यू.वी.के. गौतम कॉलेज ऑफ फार्मसी, सुल्तानपाल्या आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर - 560 032.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
38/32-129/2004-पी.सी.आई. आर.आर.के. समितिज किशनलाल पाण्डे कॉलेज ऑफ फार्मसी नौबाद बीदर - 585 402.	60	2010-2011	- उपरोक्त -
126/32-5/03-पी.सी.आई. गवर्नमेन्ट कॉलेज ऑफ फार्मसी, नं० 2, पी. कलिंगा राव मार्ग सुबह सर्कल बंगलौर - 560 027.	60	2013-2014	- उपरोक्त -
127/32-121/01-पी.सी.आई. बी.वी.वी. संघस हंगल, श्री कुमारेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मसी, बागलकोट - 587 101.	60	2013-2014	- उपरोक्त -
128/32-174/08-पी.सी.आई. के.सी.टी. कॉलेज ऑफ फार्मसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 104 उमर उल इस्लाम कॉलोनी, रोजा, गुलबर्गा - 585 104.	40	2010-2011	- उपरोक्त -
132/32-79/06-पी.सी.आई. वी.एल. कॉलेज ऑफ फार्मसी मानिक प्रभु टैम्पल रोड रायचूर - 584 103.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
133/32-158/2006-पी.सी.आई. एस.ई.टी. कॉलेज ऑफ फार्मसी एस.आर. नगर, नियर भाइक्रोवेव टावर, तेजस्विनी नगर, धारवाड़ - 580 002.	60	2010-2011	- उपरोक्त -
332/32-289/2004-पी.सी.आई. प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ फार्मसी, कोटगिरे, डिस्ट्रिक्ट तुमकूर - 572 129.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
429/32-380/07-पी.सी.आई. ईस्ट वेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 63, I फेस, बी.ई.एल. लेआउट, भारतनगर विश्वनीदम पोस्ट, ऑफ मगदी रोड बंगलौर - 560 091.	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
केरल			
42/32-359/2006-पी.सी.आई. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मैडिकल कॉलेज, कालिकट, कोझिकोडे - 673 008.	20	2011-2012	निबंधक, कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट विश्वविद्यालय डाकघर, थेनहीपालेम डिस्ट्रिक्ट मालापुरम - 673 635.
135/32-312/2009-पी.सी.आई. जे.डी.टी. इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जैमेथ हिल, मैरीकुन्नु (पी.ओ.) कालीकट - 573 012.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
136/32-409/2007-पी.सी.आई. मार डिजोसकोर्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अलाधरा, श्रीकारीयम पी.ओ., थिरुवनन्थापुरम - 695 017.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबंधक, केरल विश्वविद्यालय, पालायाम, थिरुवनन्थापुरम - 695 001.
273/32-320/2009-पी.सी.आई. सेन्ट जोसफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, घर्मागिरी कॉलेज कैम्पस, नेपुन्या रोड चेरथला - 688 524.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
274/32-299/2005-पी.सी.आई. इञ्जुथाचन कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मारयामुडुम, नेयातिनकारा, थिरुवनन्थापुरम - 695 131.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
275/32-284/2006-पी.सी.आई. ग्रेस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट : कोडूथिरापुल्ली - 678 004, डिस्ट्रिक्ट पुलाक्कड	60	2011-2012	निबंधक, कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट विश्वविद्यालय डाकघर, थेनहीपालेम डिस्ट्रिक्ट मालापुरम - 673 635.
मध्य प्रदेश			
138/32-257/2009-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी आई.पी.एस. अकैडमी, हुकमखेड़ी, राजेन्द्र नगर, इन्दौर - 452 012.	60	2011-2012	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
141/32-4/05-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, डॉ० एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर - 470 003.	60	2013-2014	निबन्धक डॉ० एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर - 470 003.
142/32-410/2007-पी.सी.आई. सन इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (सिपर), लहर, डिस्ट्रिक्ट भीण्ड - 477 445.	60	2002-2003 से 2011-2012 तक	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
143/32-341/2006-PCI गुरु रामदास खालसा इन्स्टीट्यूट ऑफ साईंसिज एण्ड टेक्नोलॉजी (फार्मेसी), कुकरीखेड़ा, बरेला, जबलपुर - 483 001.	60	2011-2012	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
222/32-327/2005-PCI महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टेडीज, बिहाईन्ड एअर स्ट्रीप, दताना, देवास रोड, उज्जैन - 456 664.	60	2010-2011	- उपरोक्त -
356/32-416/2010-PCI श्री रावतपुरा सरकार इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, एन.एच. 75, झांसी-ग्वालियर रोड, दतिया	60	2003-2004 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
430/32-105/96-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ स्टैडिज इन फार्म. साईंसिज, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर - 474 011.	60	2007-2008 तक (2010-2011 एवं 2011-2012 के लिए)	निबन्धक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर - 474 011.
458/32-454/2008-पी.सी.आई. ऋषिराज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रेवती (नियर टोल टैक्स नाका) संवेर रोड, इन्दौर - 453 331.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
महाराष्ट्र			
53/32-32/04-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बोरगाँव (मेघे), वर्धा - 442 001.	60	2011-2012	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001.
57/32-441/2009-पी.सी.आई. श्री संतकृपा शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (डी.फार्म.), घोगाँव (शिवाजीनगर) ताल्लुक कराड़, डिस्ट्रिक्ट सतारा - 415 124.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबन्धक शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर कोल्हापुर - 416 001.
145/32-148/03-पी.सी.आई. तापी वैली एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नेहरू विद्या नगर, फेजपुर - 425 503.	60	2011-2012	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, उमावीनगर, पोस्ट बॉक्स नम्बर 80, जलगाँव - 425 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
147/32-194/03-पी.सी.आई. जे.एल. चतुर्वेदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डिग्री), इलेक्ट्रॉनिक्स जोन बिल्डिंग, एम.आई.डी.सी., हिंगना रोड, नागपुर - 440 016.	60	2011-2012	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001.
152/32-347/06-पी.सी.आई. प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसायटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (फॉर लेडीज), बोरहादेवाडी, देहू-आलंदी रोड, ए/पी मोसी, ताल्लुक हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 105.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
156/32-297/09-पी.सी.आई. सिंहद टैक्निकल एजुकेशन सोसायटीज सिंहद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, (सीप्स), गेट नम्बर 309, 310; ऑफ मुम्बई पुणे एक्सप्रेसवे, कुसगाँव (बी के), लोनावाला, ताल्लुक मवाळ, पुणे - 411 007.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
158/32-225/2002-पी.सी.आई. महाराष्ट्र एंक्लमी ऑफ इंजीनियर एण्ड रिसर्च महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एस.नम्बर 124 एक्सप्रेसवेसमैन कॉलोनी, एमआईटी कैम्पस, पौड रोड, कोथरुड पुणे - 411 038.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
280/32-15/1999-पी.सी.आई. बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कलिना, सांताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई - 400 098.	60	2013-2014	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज, (पू.), फोर्ड, मुम्बई - 400 032.
283/32-399/2007-पी.सी.आई. अमृतवाहिनी शैटी एण्ड शिक्षण विकास संस्थाज अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पोस्ट - संगमनेर (एस.के.), - 422 608, ताल्लुक - संगमनेर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
284/32-211/2006-पी.सी.आई. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऑपोजिट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, ओसमानपुरा, औरंगाबाद - 431 005.	40	2008-2009	निबन्धक डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद - 431 004.
285/32-227/2009-पी.सी.आई. यवातमल जिला विकास समितिज पतालधमल वाघवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी गिरीजा नगर, धमनगाँव रोड, यवातमल - 445 001.	60	2011-2012	निबन्धक संत गादगे अमरावती विश्वविद्यालय, तपोवन रोड, अमरावती - 444 602.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
359/32-93/2010-पी.सी.आई. महात्मा गाँधी विद्यामन्दिरस फार्मैसी कॉलेज, मुम्बई आगरा रोड, पंचवटी, नासिक - 422 003.	60	2013-2014	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखोण्ड पुणे - 411 007.
360/32-100/2003-पी.सी.आई. श्रीमती शरदचन्द्रिका सुरेश पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मैसी, चोपदा - 425 004.	60	2011-2012	निबन्धक उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, उमावीनगर, पोस्ट बॉक्स नम्बर 80, जलगाँव - 425 001.
444/32-402/2007-पी.सी.आई. डॉ० भानुबेन नानावटी कॉलेज ऑफ फार्मैसी, गेट नम्बर 1, मिथिबाई कॉलेज प्रिमिसिज, 1 तल, वी.एम. रोड, विले पार्ले (वैस्ट), मुम्बई - 400 056.	60	2011-2012	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज, (पू.), फोर्ड, मुम्बई - 400 032.
मिजोरम			
159/32-337/2005-पी.सी.आई. रिजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकल एण्ड नर्सिंग साईंसिज, जेमाबाक, पी.ओ. एज़वाल- 796 017.	38	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक मिजोरम विश्वविद्यालय, पी.ओ. नम्बर 190, ग्राम एम जेड यू एज़वाल - 766 012..
उड़ीसा			
160/32-170/06-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मैसी एण्ड टेक्नोलॉजी, एट/पी.ओ. सालीपुर, डिस्ट्रिक्ट कटक - 754 202.	60	2011-2012	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैम्प एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर - 760 003.
161/32-382/2009-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, शिक्षा "ओ" अनुसंधान यूनिवर्सिटी, एट जगमारा, पी.ओ. खांडागिरी, भुवनेश्वर - 751 030.	60	2010-2011	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैम्प एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर - 760 003. निबन्धक शिक्षा "ओ" अनुसंधान यूनिवर्सिटी, एट जगमारा, पी.ओ. खांडागिरी, भुवनेश्वर - 751 030. (17 सितम्बर 2007 से लागू)
240/32-264/2004-पी.सी.आई. जेपोर कॉलेज ऑफ फार्मैसी, एट/पी.ओ. रोन्डापाली, जेपोर - 764 002. डिस्ट्रिक्ट कोरापुट	60	2011-2012	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, यू जी आई ई कॉम्प्लेक्स, बेरहमपुर - 760 014.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
405/32-70/2005-पी.सी.आई. कनक मंजरी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, एट/पी.ओ. छिन्ड, राउरकेला डिस्ट्रिक्ट सुन्दरगढ़	60	2011-2012	निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, यू जी आई ई कॉम्प्लैक्स, बेरहमपुर - 760 014.
पंजाब			
162/32-206/01-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर - 143 005.	30	2011-2012	निबन्धक गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर - 143 005.
163/32-281/04-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, पी.ओ. रॉयन एण्ड सिल्क मिल्स, अमृतसर - 143 104.	30	2011-2012	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाईपास जी.टी. रोड़, लाडोवाली रोड़, जालंधर - 144 001.
164/32-228/09-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, कॉलेज फॉर गर्ल्स, राजपुरा रोड़, पटियाला - 147 001.	40	2001-2002 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
167/32-360/06-पी.सी.आई. ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (आनंदपुर साहिब गढ़शंकर रोड़), तहसील आनंदपुर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ - 140 117.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
168/32-317/09-पी.सी.आई. लवली इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (फार्मेसी), नियर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला	60	2011-2012	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाईपास जी.टी. रोड़, लाडोवाली रोड़, जालंधर - 144 001. निबन्धक लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, जालंधर-लुधियाना जी.टी.रोड़ निकट चेहरू रेलवे स्टेशन ब्रिज फगवारा - 144 001. (बी.फार्म. प्रथम वर्ष 2008-09 में दाखिल से लागू)
288/32-287/2009-पी.सी.आई. एस.डी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के.सी. रोड़, बरनाला	40	2011-2012	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाईपास जी.टी. रोड़, लाडोवाली रोड़, जालंधर - 144 001.
289/32-357/2006-पी.सी.आई. शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नांगल डिस्ट्रिक्ट रोपड़	40	2010-2011	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
290/32-420/2007-पी.सी.आई. श्री साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बधानी, पठानकोट, गुरदासपुर - 145 001.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाईपास जी.टी. रोड, लाडोवाली रोड, जालंधर - 144 001.
291/32-481/2008-पी.सी.आई. चितकारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चण्डीगढ़-पटियाला नेशनल हाईवे, तहसील-राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला - 145 001.	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
राजस्थान			
169/32-564/2009-पी.सी.आई. आर्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एस.पी.-40, कुकस इंडस्ट्रियल (रिको), एन एच- 8, दिल्ली रोड, कुकस, जयपुर	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 004. निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, सैक्टर 18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर
173/32-425/2007-पी.सी.आई. लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर - 302 004.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001. (2004-2005 से 2005-2006 तक) निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह मार्ग, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001. (2006-2007 से)
174/32-295/2010-पी.सी.आई. सेठ जी.एल. बिहानी, एस.डी. कॉलेज ऑफ टैक्निकल एजुकेशन, इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज एण्ड ड्रग रिसर्च, गगन पैठ, श्री गंगानगर - 335 001.	60	2011-2012	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001.
247/32-193/09-पी.सी.आई. संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, खेतरी, विलेज राजोटा - 333 503. डिस्ट्रिक्ट झुन्झुनू	60	2011-2012	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह मार्ग, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001.
293/32-353/2006-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, सीडलिंग एक्डमी ऑफ डिजाइन टैकनोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, कोरेबरियान, जगतपुरा, जयपुर - 302 025.	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001. निबन्धक जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर (2008-2009 से)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
433/32-329/2005-पी.सी.आई. अपेक्स इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साईंस, सैक्टर - 5, वी.टी. रोड़, मानसरोवर, जयपुर - 20.	60	2010-2011	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001. निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, सैक्टर 18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर - 302 003.

तमिलनाडू

78/32-176/2004-पी.सी.आई. के.के. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, के आर ए कैम्पस, 1/161, शंकरलिंगनार रोड़, गेरुगमबक्कम, चेन्नई - 602 101.	50	2010-2011	निबन्धक, दी तमिल नाडू डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
--	----	-----------	---

175/32-119/05-पी.सी.आई. महाराजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नम्बर 1, 7 एवेन्यू बसंत नगर, चेन्नई - 600 090.	40	2011-2012	- उपरोक्त -
--	----	-----------	-------------

434/32-164/2009-पी.सी.आई. चेरांस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 521, सिस्वान्नी मेन रोड़, तेलंगुपालायाम पीरीयू, कोयम्बटूर - 641 039.	50	2012-2013	- उपरोक्त -
--	----	-----------	-------------

उत्तर प्रदेश

82/32-378/2006-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, इन्टेग्रल यूनिवर्सिटी, दसौली, कुर्सी रोड़, लखनऊ - 226 026.	60	2010-2011	निबन्धक, इन्टेग्रल विश्वविद्यालय,, दसौली, कुर्सी रोड़, लखनऊ - 226 026.
176/32-403/2007-पी.सी.आई. प्रणवीर सिंह इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 548, भीती काल्पी रोड़, कानपुर - 208 005.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
183/32-390/2007-पी.सी.आई. लॉयड इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 11, नोलीज पार्क - II, ग्रेटर नोयडा - 201 306.	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक बाखिले सीमित	सन तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
184/32-474/2008-पी.सी.आई. कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च, फरीदीपुर-सुल्तानपुर - 228 118.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
188/32-499/2009-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, नोयडा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, प्लॉट नम्बर 19, नोलीज पार्क 2, ग्रेटर नोयडा	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
252/32-258/2003-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मेसी, इतौरा, चंदेश्वर, आजमगढ़ - 276 128.	60	2010-2011	- उपरोक्त -
296/32-444/2010-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 किलोमीटर स्टोन, दिल्ली-मेरठ रोड गाजियाबाद	60	2012-2013	- उपरोक्त -
297/32-524/2010-पी.सी.आई. श्री गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद नोलीज पार्क, ओपोजिट जिंदल पाईपस लिमिटेड एन.एच - 24, गाजियाबाद - 201 302.	60	2005-2006 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
298/32-442/2009-पी.सी.आई. आई.टी.एस. पैरामेडिकल कॉलेज, दिल्ली मेरठ रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद - 201 206.	60	2012-2013	- उपरोक्त -
300/32-276/2004-पी.सी.आई. आगरा पब्लिक फार्मेसी कॉलेज, आर्टोनी, आगरा - 282 007 (पहले आगरा पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड कंप्यूटर एजुकेशन, आर्टोनी, आगरा 10, ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा - 282 007.	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
पश्चिम बंगाल			
301/32-406/2007-पी.सी.आई. बी.सी.डी.ए. कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड टेक्नोलॉजी, 78, जैसोर रोड, हृदयपुर, बरसात, कोलकाता - 712 033.	60	2006-2007 से 2012-2013 तक	निबंधक, पश्चिम बंगाल तकनीकी विश्वविद्यालय, बी.एफ. - 142, सैक्टर - 1 साल्ट लेक सिटी कोलकाता - 700 064.
435/32-511/2008-पी.सी.आई. भारत टेक्नोलॉजी, विलेज एण्ड पी.ओ. जादुबेरिया, पी.एस. उलूबेरिया, हावड़ा - 711 316.	60	2006-2007 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

प्रस्ताव संख्या 85/पी.सी.आई./1395

64/17-560/06-पी.सी.आई.
प्रणबंधु इन्स्टीट्यूट ऑफ
पैरामैडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
सेवा सदन रोड,
अंगुल - 759 122 (उड़ीसा)

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 13 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् घोषित करती है कि प्रणबंधु इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सेवा सदन रोड, अंगुल - 759 122 (उड़ीसा) द्वारा संचालित फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्वेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017 द्वारा आयोजित उपयुक्त संस्थान की डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित मानी जायेगी जब 2007 - 2008 शैक्षणिक सत्र तक दाखिल हुए छात्र 2009 तक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें।

प्रस्ताव संख्या 85/पी.सी.आई./1396

432/32-279/2008-पी.सी.आई.
श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
डॉ० वाई.एस. खेडकर मार्ग,
सिडको नम्बर 6,
औरंगाबाद - 431 003 (महाराष्ट्र)

भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 13 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् घोषित करती है कि श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डॉ० वाई.एस. खेडकर मार्ग, सिडको नम्बर 6, औरंगाबाद - 431 003 (महाराष्ट्र) डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, औरंगाबाद - 431 004 द्वारा संचालित फार्मेसी में डिग्री पाठ्यक्रम द्वारा आयोजित उपयुक्त संस्थान की डिग्री फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित मानी जायेगी जब 2007 - 2008 शैक्षणिक सत्र तक दाखिल हुए छात्र 2011 तक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें।

अर्चना मुद्गल
निबंधक एवं सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 21st April 2010

The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003

No. DNBS (PD-SC/RC) No. 7/CGM (ASR)/-2010—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, hereby in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (1) of Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, directs that 'The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003' (hereinafter called guidelines) shall stand amended, as follows, namely:-

1. Paragraph 7(2) of the guidelines shall be substituted as under:

“(2) (i) Change or take Over of Management

The Securitisation Company or Reconstruction Company shall take the measures specified in Sections 9(a) of the Act, in accordance with instructions contained in Circular DNBS/PD (SC/RC) No. 17 /26.03.001/2009-10 dated April 21, 2010 as amended from time to time.

(ii) Sale or Lease of a part or whole of the business of the borrower

No Securitisation Company or Reconstruction Company shall take the measures specified in Section 9(b) of the Act, until the Bank issues necessary guidelines in this behalf.

A. S. RAO
Chief General Manager In-Charge

The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003

No. DNBS. PD(SC/RC) 8/CGM (ASR)-2010—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, it is necessary to amend 'The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003', in exercise of the powers conferred under Sections 3,9,10 and 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the directions contained in Notification No. DNBS 2/CGM(CSM) -2003 dated April 23, 2003, hereinafter referred to as the Directions, shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

1. In Paragraph 3 (1) of the Directions, for Clause (iii), the following clause (iii) shall be substituted.

"(iii)"Date of acquisition" means the date on which the ownership of financial assets is acquired by Securitisation Company or Reconstruction Company either on its own books or directly in the books of the trust;"

2. In Paragraph 7(1) of the Directions, in clause (i), for sub-clause (a), the following shall be substituted.

"(a) norms and procedure for acquisition either on its own books or directly in the books of the trust;"

3. In Paragraph 7(6) of the Directions, for clause (ii), the following clauses shall be substituted.

"(ii) Securitisation Company or Reconstruction Company shall formulate the policy for realisation of financial assets under which the period for realisation

shall not exceed five years from the date of acquisition of the financial asset concerned.

(iii) The Board of Directors of the Securitisation Company or Reconstruction Company may increase the period for realisation of financial assets so that the total period for realisation shall not exceed eight years from the date of acquisition of financial assets concerned.

(iv) The Board of Directors of the Securitisation Company or Reconstruction Company shall specify the steps that will be taken by the Securitisation Company or Reconstruction Company to realise the financial assets within the time frame referred to in clause (ii) or (iii) as the case may be.

(v) The Qualified Institutional Buyers shall be entitled to invoke the provisions of Section 7(3) of the Act only at the end of such extended period, if the period for realisation is extended under clause (iii).

(vi) The Qualified Institutional Buyers shall be entitled to invoke the provisions of Section 7(3) of the Act at the end of such period as specified under clause (ii), if the period for realisation is not extended under clause (iii)."

5. In Paragraph 8 of the Directions, for sub-paragraph (1), the following shall be substituted:

"(1) *Issue of Security Receipts.*- A Securitisation company or Reconstruction company shall give effect to the provisions of sections 7(1) and (2) of the Act through one or more trusts set up exclusively for the purpose. The Securitisation company or Reconstruction company shall transfer the assets to the said trusts at the price at which those assets were acquired from the originator if the assets are not acquired directly on the books of the trust:-"

6. In Paragraph 10 of the Directions, for clause (ii), the following shall be substituted.

(ii) A Securitisation company or Reconstruction company may deploy any surplus funds available with it, in terms of a policy framed in this regard by its Board of Directors, only in Government securities and deposits with scheduled commercial banks, Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture

and Rural Development or such other entity as may be specified by the Bank from time to time.”

7. In Paragraph 10 of the Directions, for clause (iii), the following clause (iii) shall be substituted.

“(iii) No Securitisation Company or Reconstruction Company shall, invest in land or building, -

Provided that the restriction shall not apply to investment by Securitisation Company or Reconstruction Company in land and buildings for its own use up to 10% of its owned fund,

Provided further that the restriction shall not apply to land and building acquired by the Securitisation Company or Reconstruction Company in satisfaction of claims in ordinary course of its business of reconstruction of assets in accordance with the provisions of SARFAESI Act. ”

Provided further that any land and/or building acquired by Securitisation Company or Reconstruction Company in the ordinary course of its business of reconstruction of assets while enforcing its security interest, shall be disposed of within a period of five years from the date of such acquisition or such extended period as may be permitted by the Bank in the interest of realization of the dues of the Securitisation Company or Reconstruction Company.

8. In paragraph 12(1)(i) of the Directions after the words “classify the assets” and before the words “into the following categories” following words shall be inserted:

“held in its own books”

9. Paragraph 12(1)(ii)(c) of the Directions shall be modified as under –

(c) ‘Loss asset’ if (A) the asset is non-performing for a period exceeding 36 months; (B) the asset is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to either erosion in the value of security or non-availability of

security; (C) the asset has been identified as loss asset by the Securitization company or Reconstruction company or its internal or external auditor; or (D) the financial asset including Security Receipts is not realized within the total time frame specified in the plan for realization formulated by the Securitization company or Reconstruction company under Paragraph 7 (6) (ii) or 7 (6) (iii) and the Securitization company or Reconstruction company or the trust concerned continues to hold those assets.”

10. In paragraph 15 (1) of the Directions, the following clauses shall be added after clause (iv) –

(v) *Value of financial assets acquired during the financial year either on its own books or in the books of the trust;*

(vi) *Value of financial assets realized during the financial year;*

(vii) *Value of financial assets outstanding for realization as at the end of the financial year;*

(viii) *Value of Security Receipts redeemed partially and the Security Receipts redeemed fully during the financial year;*

(ix) *Value of Security Receipts pending for redemption as at the end of the financial year;*

(x) *Value of Security Receipts which could not be redeemed as a result of non-realization of the financial asset as per the policy formulated by the Securitization company or Reconstruction company under Paragraph 7(6)(ii) or 7(6)(iii).*

(xi) *Value of land and/or building acquired in ordinary course of business of reconstruction of assets (year wise)*

A. S. RAO

Chief General Manager In-Charge

The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003

No. DNBS. PD(SC/RC). 9/CGM (ASR)-2010—

The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Reserve Bank to regulate the financial system to the advantage of the country and to prevent the affairs of any Securitisation Company or Reconstruction Company from being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or in any manner prejudicial to the interest of such Securitisation Company or Reconstruction Company, it is necessary to amend 'The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003', in exercise of the powers conferred under Sections 3,9,10 and 12 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the directions contained in Notification No. DNBS 2/CGM(CSM) -2003 dated April 23, 2003, hereinafter referred to as the Directions, shall stand amended with immediate effect as follows, namely -

1. In Paragraph 5 of the Directions, after subparagraph (v), the following subparagraph (vi) shall be inserted.

" (vi) the Securitisation Company or Reconstruction Company shall continue to hold a minimum of 5% of the Security Receipts of each class issued by the SC/RC under each scheme on an ongoing basis till the redemption of all the Security Receipts issued under such scheme

A. S. RAO

Chief General Manager In-Charge

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th February 2010

No. R-12/19/1/SMB/98-Bft. II—

In supersession of notification No. R-12/19/1/SMB/98-Bft.II dated 28.06.02 the Director General, ESI Corporation exercising the powers under Regulation 75 of the ESI (Genl.) Regulation 1950 read with the resolution of the ESI Corporation dated 14.12.1980 has re-constituted as under the Zonal Peripatetic Special Medical Board under Reg. 74 of ESI (Genl.) Reg. 1980 for the purpose of Sec.54 and 54-A of the ESI Act and Regulation 74 of the ESI (Genl.) Regulation 1950 for determining the disability due to Occupational Disease for West Zone having jurisdiction to examine the cases of Mumbai, Ahmedabad, M.P. Goa, Pune, Nagpur, Thane, Marol, Aurangabad, Surat and Baroda Regions/Sub-Regions.

(1)	Medical Superintendent, ESI Model Hospital-cum-OD Centre Andheri	Chairman
(2)	Senior Research Officer Dy. Dir (NIOH)/Asst. Dir. (NIOH) Ahmedabad	Member
(3)	Chest Specialist ESI Model Hospital-cum-OD Centre Andheri	Member
(4)	Specialist as per requirement ESI Model Hospital-cum-OD Centre Andheri	Member

In case concerned specialist is not available in ESI Hospital/OD Central the specialist may be co-opted from other ESI Hospitals in the State or nearby State.

B. K. SAHU
Insurance Commissioner

New Delhi-110002, the 30th April 2010

No. V-33(13)20/99-E.IV—In pursuance of Section-25 of the E.S.I. Act, 1948, read with Regulation-10 of E.S.I. (General) Regulations, 1950, the Chairman, E.S.I. Corporation has made certain changes in Employers' Representative on the Regional Board, E.S.I. Corporation, Jammu & Kashmir.

Accordingly, in the Corporation's Notification No. V-33(13)20/99-E.IV dated 19.02.2010 against entries at Sl. No. 6, 7 & 8, the following entries shall be substituted :

Sl.No.	EXISTING ENTRY AT SL.NO.6,7&8.	Sl.No.	PROPOSED ENTRY AT SL.NO.6,7&8.
1.	Shri Rakesh Bhatt, General Secretary, Bari Brahamna Industries Association, Bari Brahamna, Jammu.	1.	Shri Tejbeer Singh Reen, President, Association of Small Scale Industries, Gangyal, Jammu.
2.	Shri Anil Gupta, Vice-President, Association of Small Scale Industries, Gangyal, Jammu.	2.	Shri Nazir Ahmad Dar, President, Chamber of Commerce and Industries, Srinagar (J&K).
3.	Managing Director, M/s. Khyber Industries, Srinagar. J&K.	3.	Shri Y.V. Sharma, President, Chamber of Commerce and Industries, Jammu (J&K).

C. S. KEDAR
Director General

New Delhi, the 3rd May 2010

No. **N-15/13/3/2/2009-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1959, the Director General has fixed the **1st May, 2010** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Jharkhand** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1959 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Jharkhand** namely:-

SL. NO.	NAME OF REVENUE VILLAGE	NO. OF REV. THANA	NAME OF CIRCLE OFFICE	DISTRICT
1.	OASAM	11	PATRATU	HAZARIBAGH
2.	PALANI	12	PATRATU	HAZARIBAGH
3.	UCCHARING	14	PATRATU	HAZARIBAGH
4.	SALYA	15	PATRATU	HAZARIBAGH
5.	KATIYA	16	PATRATU	HAZARIBAGH
6.	KOTOH	18	PATRATU	HAZARIBAGH
7.	SAKUL	21	PATRATU	HAZARIBAGH
8.	PATRATU	22	PATRATU	HAZARIBAGH
9.	JAINAGAR	25	PATRATU	HAZARIBAGH
10.	BALKUDRA	26	PATRATU	HAZARIBAGH
11.	LABAGA	29	PATRATU	HAZARIBAGH
12.	MATKAMA	49	PATRATU	HAZARIBAGH
13.	LAADI	53	PATRATU	HAZARIBAGH

R. C. SHARMA
Director (P & D)

No. **N-15/13/2/1/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st May, 2010** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Assam** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Assam** namely:-

**"AREAS UNDER JORABAT (ASSAM SIDE), TEPESIA & SONAPUR
FALL UNDER THE REVENUE VILLAGES BORNi, AMBHER, SARUTARI**

& SARUTARI N.C. IN SONAPUR MOUZA AND REVENUE VILLAGE, KAMARKUCHI, KAMARKUCHI N.C., AMERIGOG & AMERIGOG N.C. IN PANBARI MOUZA".

R. C. SHARMA
Director (P & D)

No. **N-15/13/1/10/2009-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st May, 2010** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF URUKONDAPET IN MADJIL MANDAL, KALWAKURTHY (TQ) IN MAHABOONNAGAR DISTRICT OF ANDHRA PRADESH. "

R. C. SHARMA
Director (P & D)

The 4th May 2010

No. **N-15/13/15/2/2010-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st May, 2010** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **West Bengal** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **West Bengal** namely:-

" AREAS COMPRISING MOUZAS OF FANKIRPUR (JL No. 25), BURDWAN (JL No. 30), ALAMGUNGE (JL No. 31), BERYPUR (JL No. 32), MIRCHHABA (JL No. 33), JAGATBERH (JL No. 34), BALIDANGA (JL No. 35), DAILYKHAJE ANWARBE (JL No. 36), BHATCHHALA (JL No. 37), SHANKHARIPUKUR (JL No. 38), RADHANAGAR (JL No. 39), BABURBUG (JL No. 40), GODA (JL No. 41),

**BAHIR SARBA MANGALA (JL No. 42), BAMCHANDAIPUR (JL No. 74),
ICHHLABAD (JL No. 75), KANAINATH SHAL (JL No. 76),
ALISHA (JL No. 77), AND GOPAL NAGAR (JL No. 78) UNDER
P.S. BURDWAN IN THE DISTRICT OF BURDWAN".**

R. C. SHARMA
Director (P & D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Hyderabad -500027

No. EPFO/ACC/AP & OR/F-No.240/2010/79..... Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule – I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour / C.P.F.C. Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule – II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule- I against their names.

Hyderabad, the 20th May 2010

No. EPFO/ACC/AP & OR/F-No. 240/2010/79-S.O.—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group

Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner concerned from the operation of the said scheme for a period of 3(three) years.

Schedule – II

- 1 The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P.F. Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F. Commissioner may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
- 4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
- 5 Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the respective Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7 Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

- 9 Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the respective Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
- 12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the respective Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. RAGHURAM

Additional Central P. F. Commissioner

For and on behalf of Central P. F. Commissioner

New Delhi

SCHEDULE (I)

S. No.	PREVIOUS NOTIFICATION NO AND DATE	RO/ SRO	Code No. & NAME OF THE ESTABLISHMENT	PERIOD OF EXEMPTION	
				FROM	TO
1	2	3	5	6	7
1	--	SRO CDP	AP/CDP/34456 - M/s Ushodaya Publications, Nellore,	01.04.2000 01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2003 31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
2	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 E - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - E, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
3	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/872, Dated 14.05.1999	SRO CDP	AP/CDP/29310 - M/s Ushodaya Publications, Nellore,	01.08.2000 01.08.2003 01.08.2006 01.08.2009	31.07.2003 31.07.2006 31.07.2009 31.07.2012
4	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1898, Dated 13.11.1991	SRO CDP	AP/CDP/13177 - M/s Gomathy Spinners, Chittoor,	27.07.1993 27.07.1996 27.07.1999	26.07.1996 26.07.1999 26.07.2011
5	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F,NO.240/2009/ 478/ dated 13.11.2009	SRO RJY	AP/RJY/4322 - M/s Glaxo Smithkline Consumer Health Care Limited, Dowlaiswaram,	04.08.2009	03.08.2012
6	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 A - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - A, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012

7	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 G - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - G, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
8	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 F - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - F, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
9	--	SRO CDP	AP/CDP/60109 - M/s Abak Constructions, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
10	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 C - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - C, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
11	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 B - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - B, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
12	--	SRO CDP	AP/CDP/60114 - M/s Krishna Catering Services, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
13	--	SRO CDP	AP/CDP/29633 D - M/s Ultra Tech Cement Works, Contractors - D, Tadipatri,	01.08.2009	31.07.2012
14	--	SRO CDP	AP/CDP/60112 - M/s Well Mech Engineers & constructions, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
15	--	SRO CDP	AP/CDP/60113 - M/s Raja Vardhana Enterprises, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
16	--	SRO CDP	AP/CDP/60111 - M/s Crescent Erectors, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
17	--	SRO CDP	AP/CDP/60110 - M/s Refro-tech Engineers & Constructions, Bhogasamudram,	01.08.2009	31.07.2012
18	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F,NO.240/2009 dated 21.02.2009	SRO VSP	AP/VP/17120 - M/s Coromandel Roller Flour Mills Private Limited, Visakhapatnam,	01.12.2009	30.11.2012
19	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F,NO.240/2008 dated 22.03.2008	SRO VSP	AP/VP/2760 - M/s Coromandel International Limited, Visakhapatnam,	25.09.2009	24.09.2012
20	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F,NO.240/2007 dated 31.03.2007	SRO CDP	AP/CDP/6980 - M/s Stanpacks India Limited, Nellore,	24.06.2006	23.06.2012
21	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1002, Dated 15.10.2004	RO GNT	AP/GNT/27707 - M/s INCAP Limited, Nidamanur,	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
22	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1417, Dated 29.12.2004	RO GNT	AP/RO/GNT/21104 - M/s ASSIST, Chilkaluripet, Guntur,	01.03.2007	28.02.2010
23	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/1002, Dated 15.10.2004	SRO RJY	AP/RJY/3802 - M/s A.P.Paper Mills Limited, Rajahmundry,	18.09.2003 18.09.2006 18.09.2009	17.09.2006 17.09.2009 17.09.2012
24	--	SRO CDP	AP/CDP/50238 - M/s Durferriit Asea Private Limited, Kadapa,	01.07.2006 01.07.2009	30.06.2009 30.06.2012

25	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/152, Dated 31.05.2000	SRO CDP	AP/CDP/6376 - M/s Ramakrishna Chemicals Limited, Kadapa,	27.05.2001 27.05.2004 27.05.2007	26.05.2004 26.05.2007 26.05.2010
26	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/4504, Dated 13.10.1999	SRO CDP	AP/CDP/2375 - M/s District Central Co-op Bank Limited, Kadapa,	01.11.2000 01.11.2003 01.11.2006 01.11.2009	31.10.2003 31.10.2006 31.10.2009 31.10.2012
27	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/4299, Dated 16.09.1999	SRO CDP	AP/CDP/11617 - M/s Balaji Hatcheries, Chittoor,	01.10.2001 01.10.2004 01.10.2007	30.09.2004 30.09.2007 30.09.2010
28	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2007/1357, dated 22.03.2008	RO HYD	AP/HYD/5652 - M/s The Federation of Sericulturists & Silk Weavers' Co-op Societies Ltd., Jubilee Hills - Hyderabad	01.03.2008	29.02.2011
29	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/23, dated 02.04.2003	RO HYD	AP/HYD/6327 - M/s Secunderabad Engineering Corporation, R.P. Road, Secunderabad - Hyderabad	01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
30	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2007/1357, dated 22.03.2008	RO HYD	AP/HYD/11579 - M/s Colorama Printers Pvt. Ltd., Begumpet - Hyderabad	01.10.2009	30.09.2012
31	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2007/1357, dated 22.03.2008	RO HYD	AP/HYD/16392 - M/s ITW India Ltd. (formerly known as ITW Signode India Ltd), Banjara Hills - Hyderabad	01.10.2008	30.09.2011
32	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2009/719, dated 13.04.2009	RO HYD	AP/HYD/19691 - M/s A.P. Beverages Corporation Ltd., M.J. Road - Hyderabad	24.06.2009	23.06.2012
33	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/1869, dated 12.01.2004	RO HYD	AP/HYD/20696 - M/s Shriram Enterprises, Ramanthapur - Hyderabad	01.07.2005 01.07.2008	30.06.2008 30.06.2011
34	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/23, dated 02.04.2003	RO HYD	AP/HYD/20949 - M/s Swamy Sons (Agencies) Pvt. Ltd., Uppal - Hyderabad	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
35	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2009/719, dated 13.04.2009	RO HYD	AP/HYD/22301 - M/s Balaji Rail Road Systems Ltd., Staff Road, Sec' bad - Hyderabad	24.06.2009	23.06.2012
36	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419, dated 31.03.2007	RO HYD	AP/HYD/27473 - M/s Crystal Marketing Corporation, Uppal - Hyderabad	01.08.2005 01.08.2008	31.07.2008 31.07.2011
37	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/23, dated 02.04.2003	RO HYD	AP/HYD/32786 - M/s Carry Fast Transport, Ramanthapur - Hyderabad	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
38	No.2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/1869, dated 12.01.2004	RO HYD	AP/HYD/34218 - M/s Sovereign Enterprises, Ramanthapur - Hyderabad	01.07.2005 01.07.2008	30.06.2008 30.06.2011
39	--	RO HYD	AP/HYD/50576 - M/s Rewa Tollway Pvt Ltd., Madhapur - Hyderabad	01.07.2008	31.05.2011
40	--	SRO KKP	AP/KKP/32800 - M/s Radhakrishna Hospitality Services (P) Ltd., Ameerpet - Hyderabad	01.08.2008	31.07.2011
41	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/2287, dated 26.07.1999	RO HYD	AP/HYD/1950 - M/s Nizam Club, Saifabad, - Hyderabad	01.12.2001 01.12.2004 01.12.2007	30.11.2004 30.11.2007 30.11.2010
42	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/5836, dated 31.01.2000	RO HYD	AP/HYD/3562 - M/s Alkali Metals Ltd., Uppal - Hyderabad	01.03.2002 01.03.2005 01.03.2008	28.02.2005 29.02.2008 28.02.2011
43	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/Gazett e/2009/719, dated 13.04.2009	RO HYD	AP/HYD/3676 - M/s NMDC Ltd. (A Govt. Of India Enterprises), Masabtank - Hyderabad	28.08.2009	27.08.2012

44	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/2474, dated 09.11.2000	RO HYD	AP/HYD/3986 - M/s Mishra Dhatu Nigam Ltd., Kanchanbagh, Hyderabad - Hyderabad	14.10.2000 14.10.2003 14.10.2006 14.10.2009	13.10.2003 13.10.2006 13.10.2009 13.10.2012
45	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/23, dated 02.04.2003	RO HYD	AP/HYD/11891 - M/s ASACO Pvt. Ltd., S.D.Road, Secunderabad - Hyderabad	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
46	No.AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/Gazette/2009/719, dated 13.04.2009	RO HYD	AP/HYD/13477 - M/s Card Box Company, Vijaynagar Colony - Hyderabad	01.12.2009	30.11.2012
47	--	RO HYD	AP/HYD/16338 - M/s SEW Infrastructure Ltd., Begumpet, Hyderabad - Hyderabad	01.07.2009	30.06.2012
48	No. AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2009, dated 13.04.2009, Gazette dt. 21.02.09	RO HYD	AP/HYD/24324 - M/s Surana Telecom and Power Ltd., (Formerly Surana Telecom Ltd.), S.P. Road, Secunderabad - Hyderabad	01.12.2009	30.11.2012
49	No.EPFO/ACC/SZ/F.No.240/Gazette/2009/719, dated 13.04.2009	RO HYD	AP/HYD/26110 - M/s Srikant Enterprises, Uppal - Hyderabad	24.06.2006 24.06.2009	23.06.2009 23.06.2012
50	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/995, dated 07.05.2002	RO HYD	AP/HYD/30633 - M/s Shri Shakti College of Hotel Management, Begumpet - Hyderabad	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
51	No.2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1869, dated 12.01.2004	RO HYD	AP/HYD/32131 - M/s Universal Travels, Ramoji Film City, Hyderabad - Hyderabad	01.04.2004 01.04.2007	31.03.2007 31.01.2009
52	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/1002, dated 15.10.2004	RO HYD	AP/HYD/32393 - M/s Sagar Power Ltd., Banjara Hills, Hyderabad	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
53	No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/26, dated 27.04.2003	RO HYD	AP/HYD/34893 - M/s Rainbow Colour Lab (A division of Ushakiron Movies Ltd.), Ramoji Film City - Hyderabad	01.12.2004 01.12.2007	30.11.2007 31.01.2009
54	--	RO HYD	AP/HYD/38291 - M/s Ushodaya Enterprises Ltd., (Television Division), Ramoji Film City - Hyderabad	01.03.2001 01.03.2004 01.03.2007	29.02.2004 28.02.2007 28.02.2010
55	--	RO HYD	AP/HYD/43106 - M/s Rhythm, Ramoji Film City - Hyderabad	01.07.2006	31.01.2009
56	--	RO HYD	AP/HYD/43170 - M/s Symphony (A division of Ushakiron Movies Ltd.), Ramoji Film City, Hyderabad	01.07.2006	31.01.2009
57	--	RO HYD	AP/HYD/44363 - M/s A.P.Dalitbahujan Mutually Aided Co-op. Societies Federation Ltd., (Ankuram Sangamam Poram) Karkhana, Sec'bad - Hyderabad	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
58	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt.I/ 1417, Dated 29.12.2004	RO NZN	AP/NZB/2411 - M/s Nizamabad Dist. Co-op Central Bank Ltd, Nizamabad	24.06.2006	23.06.2009
59	AP/EPFG/ACC/AP&OR/F.No.240/Gazette/2009/15, Dt.27.02.2009	RO NZN	AP/NZB/21830 - M/s Gramabhyudaya Mandali, Dharmaram, Nizamabad Dist.	01.03.2008	28.02.2011

BAR COUNCIL OF INDIA**New Delhi, the 5th June 2010****ALL INDIA BAR EXAMINATION RULES – 2010**

The Bar Council of India at its meeting held on 30th April 2010 passed the following resolution:-

Resolution No. 73/2010

RESOLVED that the Bar Council of India, being vested with the power of laying down conditions subject to which advocates shall have the right to practise the profession of law under the Advocates Act, 1961, shall conduct an All India Bar Examination, the passing of which would entitle the advocate to a Certificate of Practice which would permit him/her to practise the profession of law under the Advocates Act, 1961. The Bar Council of India, therefore, approves the Rules framed by the Directorate of Legal Education for the conduct of the All India Bar Examination.

In view of the above resolution the following rules are framed and to be inserted as Rules 9 to 11 in Part VI, Chapter III of the Bar Council of India Rules – Conditions for Right To Practise – under Section 49(1)(ah) of the Advocates Act, 1961.

9. No advocate enrolled under Section 24 of the Advocates Act, 1961 shall be entitled to practise under Chapter IV of the Advocates Act, 1961, unless such advocate successfully passes the All India Bar Examination conducted by the Bar Council of India. It is clarified that the Bar Examination shall be mandatory for all law students graduating from academic year 2009-2010 and onwards and enrolled as advocates under Section 24 of the Advocates Act, 1961.

The All India Bar Examination

10. (1) The All India Bar Examination shall be conducted by the Bar Council of India.

(a) The Bar Examination shall be held at least twice each year in such month and such places that the Bar Council of India may determine from time to time.

(b) The Bar Examination shall test advocates in such substantive and procedural law areas as the Bar Council of India may determine from time to time.

(c) Such substantive/procedural law areas and syllabi shall be published by the Bar Council of India at least three months prior to the scheduled date of examination.

(d) The percentage of marks required to pass the Bar Examination shall be determined by the Bar Council of India.

(e) An unsuccessful advocate may appear again for the Bar Examination, without any limit on the number of attempts.

(f) The Bar Council of India, through a committee of experts, shall determine the syllabi, recommended readings, appointment of paper setters, moderators, evaluators, model answers, examination hall rules and other related matters.

(g) The Bar Council of India shall determine the manner and format of application for the examination.

(h) Upon successfully passing the Bar Examination, the advocate shall be entitled to a Certificate of Practice.

Application for Certificate of Practice

11. (1) The Certificate of Practice shall be issued by the Bar Council of India to the address of the successful advocate within 30 days of the date of declaration of results.

(2) The Certificate of Practice shall be issued by the Bar Council of India under the signature of the Chairman, Bar Council of India.

M. D. JOSHI
Secy.

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th May 2010

Ref. No. 17-1/2010-PCI/3359-3530—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its 85th Central Council meeting held on 8th & 9th April, 2010 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

DIPLOMA IN PHARMACY**Resolution No. 85/PCI/1393**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
14/17-461/94-PCI KDR Govt. Polytechnic, Wanaparthy – 509 103, <u>Mahaboobnagar Distt.</u>		60	2011-2012	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, <u>Hyderabad – 500 063.</u>
15/17-661/09-PCI J.J. College of Pharmacy, Maheshwaram – 501 359 <u>Ranga Reddy Distt.</u>		60	2010-2011	- do -
16/17-87/91-PCI Sri Padmavathi Women's Polytechnic, T.T. Devasthanams, <u>Tirupati – 517 502.</u>		30	2011-2012	- do -
17/17-541/2008-PCI Nalanda College of Pharmacy (P.O) Charlapally, Hyderabad Road, <u>Nalgonda -508 001.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
202/17-29/2002-PCI Govt. Polytechnic, Masab Tank, <u>Hyderabad – 500 028.</u>		60	2011-2012	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, <u>Hyderabad – 500 063.</u>
203/17-592/2003-PCI Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy, Sheshadri Nagar, <u>Mahbubnagar – 509 001.</u>		60	2011-2012	- do -
204/17-584/2009-PCI R.K.L.K. D-Pharmacy College, Behind Gandhi Park, <u>Survapet – 508 213.</u>		60	2010-2011	- do -
205/17-707/2005-PCI Vikas College of Pharmacy, Purela Road, Vissannapeta – 521 215, <u>Krishna Dist.</u>		60	2011-2012	- do -
206/17-605/05-PCI Hindu College of Pharmacy Amaravathi Road, <u>Guntur.</u>		60	2011-2012	- do -
209/17-736/2005-PCI Sasikanth Reddy College of Pharmacy, Northrajupalem, Kodavalur (V & M), <u>Nellore (Distt.).</u>		60	2012-2013	- do -
210/17-582/2003-PCI Gokaraju Rangaraju College of Pharmacy, Bachupally, Miyapur, <u>Hyderabad – 500 050.</u>		60	2010-2011	- do -
211/17-591/2009-PCI Annamacharya College of Pharmacy, New Boyanapalli, Rajampet – 516 126, <u>Distt. Kadapa.</u>		60	2011-2012	- do -
212/17-589/2003-PCI Vagdevi College of Pharmacy and Research Centre, Brahmadevam, Muttukur Mandal, <u>Nellore Distt. - 524 346.</u>		60	2011-2012	- do -
329/17-646/2004-PCI Viswambhara Educational Society, Vaagdevi College of Pharmacy, #2-2-457/3, Ramnagar, Hanamkonda, <u>Warangal – 506 001.</u>		60	2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
395/17-183/1999-PCI Sri G. Pulla Reddy Govt. Polytechnic, B. Thandrapadu P.O., <u>Kurnool – 518 002.</u>		60	2010-2011	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, <u>Hyderabad – 500 063.</u>
396/17-580/2010-PCI Vishwa Bharathi College of Pharmaceutical Sciences, N.R.T. Road, Perecherla, <u>Guntur – 522 009.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>BIHAR</u>				
18/17-16/2009-PCI Govt. Pharmacy Institute, Agamkuan, P.O. Gulazarbagh, <u>Patna – 800 007.</u>		60	From 2007-2008 to 2011-2012	The Chairman, Controller of examination (Diploma in Pharmacy) Deptt. of Health Medical Education & F.W. <u>Patna – 800 001.</u>
<u>CHANDIGARH</u>				
398/17-147/2009-PCI Sri Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Sector – 26, <u>Chandigarh – 160 026.</u>		60	2012-2013	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Plot No.1-A, Sector 36-A, <u>Chandigarh.</u>
<u>CHHATTISGARH</u>				
19/17-590/03-PCI SLT Institute of Pharmaceutical Sciences, Guru Ghasi Das University, <u>Bilaspur – 495 009.</u>		60	2011-2012	The Registrar Guru Ghasi Das University, <u>Bilaspur – 495 009.</u>
20/17-857/08-PCI Rungta College of Pharmaceutical Sciences and Research, Kurud Road, Kohaka, <u>Bhilai – 491 024.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
213/17-740/2005-PCI Columbia College of Pharmacy, Village - Tekari, Post Girod Mandhar Cement Factory, Near Vidhan Sabha, <u>Raipur – 493 111.</u>		60	2012-2013	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u>
214/17-758/2008-PCI Moulana Abul Kalam Azad College of Pharmacy, Nava Durga Nagar, <u>Mathpurena, Raipur.</u>		60	2012-2013	- do -
<u>GOA</u>				
21/17-41/2002-PCI Goa College of Pharmacy 18 th June Road, <u>St. Inez. Panaji.</u>		60	2013-2014	The Registrar Govt. of Goa Directorate of Tech. Education Board of Tech. Exams. Goa SIE, Build. Alto <u>Provorim Panaji – Goa.</u>
<u>GUJARAT</u>				
22/17-27/94-PCI Shri M.N. College of Pharmacy, Shri B.D. Rao College Campus, Khambhat – 388 620, <u>Dist. Anand.</u>		120	2011-2012	The Registrar Gujarat University Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 009.</u> The Registrar Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on & from 8 th July, 2008).
23/17-203/02-PCI Shri B.M. Shah College of Pharmacy, College Campus, Modasa – 383 315, <u>Distt. Sabarkantha.</u>		60	2011-2012	The Deputy Registrar Hemchandracharya North Gujarat University Rajmahal Road, P.B. No.21 <u>Patan – 384 265.</u> The Registrar Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on & from 8 th July, 2008).

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
331/17-769/2009-PCI Diploma Pharmacy college, Rampura, Post Kakanpur Ta. <u>Godhra Distt. 389001.</u>		60	2012-2013	The Registrar Gujarat University Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 009.</u> (From 2005-06 to 2007-08)
				The Registrar Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (w.e.f. July, 2008)
400/17-61/2005-PCI B.K. Mody Govt. Pharmacy College, Polytechnic Campus, Near Aji Dam, Bhavnagar Road, <u>Rajkot – 360 003.</u>		60	2011-2012	The Registrar Saurashtra University University Campus Kalawad Road <u>Rajkot – 360 005 (Gujarat)</u>
				The Registrar Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura, <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on & from 8 th July, 2008)
<u>HARYANA</u>				
24/17-164/2006-PCI Govt. Polytechnic, Mandi Adampur, <u>Hissar – 125 052.</u>		60 (Raise in adms. from 45 to 60 from 2008-2009 a.s.)	2011-2012	The Director, State Board of Tech. Education, Haryana, S.C.O. No. 38-39 Sector – 17-A <u>Chandigarh – 160 017.</u>
25/17-224/2004-PCI Lord Shiva College of Pharmacy Near Civil Hospital <u>Sirsa – 125 055.</u>		60	2011-2012	- do -
216/17-644/2009-PCI B.S. Anangpuria Institute of Pharmacy Alampur, Ballabgarh – Sohna Road, <u>Faridabad.</u>		60	2012-2013	- do -
402/17-811/2007-PCI R.K.S.D. College of Pharmacy, Ambala Road, <u>Kaithal – 136 027.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>HIMACHAL PRADESH</u>				
27/17-281/94-PCI Govt. Polytechnic for Women, Kandaghat, <u>Distt. Solan – 173 215.</u>		30	2011-2012	The Secretary H.P. Takniki Shiksha Board 287, Civil Lines, Dharmshala <u>Distt. Kangra – 176 215.</u>
403/17-735/2009-PCI Shanti Niketan Polytechnic (D.Pharmacy), Village Malthr, P.O. Ratti, <u>Distt. Mandi.</u>		60	2012-2013	- do -
<u>KARNATAKA</u>				
29/17-767/2009-PCI Bangalore Institute of Pharmacy Education & Research (BIPER), # 12, Kogilu Main Road, Yelahanka, <u>Bangalore – 64.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road <u>Bangalore – 560 027.</u>
30/17-744/05-PCI Rajiv Memorial Education Society's College of Pharmacy, Balaji Nagar, Old Jewargi Road, <u>Distt. Gulbarga – 585 102.</u>		60	2011-2012	- do -
32/17-267/06-PCI B.E.S. Instt. of Pharmacy, 16 th , 4 th Main Block Jaya Nagar, <u>Bangalore – 560 011.</u>		60	2011-2012	- do -
33/17-237/99-PCI Sri Jagadguru Mallikarjuna Murugharajendra College of Pharmacy, <u>Chitradurga – 577 502.</u>		60	2011-2012	- do -
34/17-220/2003-PCI T.M.A.E. Society's M.M.J.G. College of Pharmacy, Laxmeshwar – 582 116, <u>Gadag Distt.</u>		40	2011-2012	- do -
35/17-190/2009-PCI Milind Institute of Pharmacy, J.C. Nagar, W.C. Road, Pipeline Road, Mahalakshmi Post, <u>Bangalore – 560 086.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
36/17-393/2007-PCI H.M.S. College of Pharmacy, H.M.S. Education Society Campus, Shettihalli Road, <u>Tumkur – 572 102.</u>		60	2011-2012	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road <u>Bangalore – 560 027.</u>
37/17-295/2009-PCI U.V.K. Gautham College of Pharmacy, Sultanpalaya R.T. Nagar Post, <u>Bangalore – 560 032.</u>		60	2011-2012	- do -
38/17-102/1996-PCI R.R.K. Samithi's Kishan Lal Pande College of Pharmacy, Naubad <u>Bidar – 585 402.</u>		60	2010-2011	- do -
332/17-603/2004-PCI Priyadarshni College of Pharmacy, Koratagere, <u>Distt.Tumkur – 572 129.</u>		60	2010-2011	- do -
<u>KERALA</u>				
40/17-228/99-PCI A.M. College of Pharmacy, Vavvakkavu Post, Karungapally, <u>Kollam Dt. – 690 528.</u>		90	2011-2012	The Chairman, Board of D.Pharm. Examinations, Dte. of Medical Education, C/o College of Pharm. Sciences, P.O. Medical College, <u>Thiruvananthapuram – 695 011.</u>
41/17-513/2002-PCI A.J. College of Pharmacy, Thonnakkal P.O., <u>Thiruvananthapuram – 695137.</u>		60	2011-2012	- do -
42/17-32/99-PCI Govt. College of Pharmaceutical Sciences, Medical College, Calicut, <u>Kozhikode – 673 008.</u>		50	2011-2012	- do -
217/17-357/95-PCI Priyadarshini Institute of Paramedical Sciences, Medical College, P.O. <u>Thiruvananthapuram – 695 011.</u>		40	2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>MADHYA PRADESH</u>				
43/17-505/03-PCI Devi Ahilya College of Pharmacy, 8/1 Ushaganj, Near Jaora Compound, <u>Indore – 452 001.</u>	60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudtyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar <u>Bhopal – 462 036.</u>	
45/17-217/2005-PCI Kalaniketan Polytechnic College, North Civil Lines, <u>Jabalpur – 482 001.</u>	60 (Raise in admns. from 40 to 60 from 2008-2009 a.s.)	2011-2012	- do -	
220/17-728/2008-PCI Sagar Institute of Research & Technology-Pharmacy, Ayodhya Bye Pass Road, <u>Bhopal – 462 041.</u>	60	2009-2010	- do -	
221/17-737/2008-PCI NRI Institute of Diploma Pharmacy, 3 Sajjan Singh Nagar, Opp. Patel Nagar, Raison Road, <u>Bhopal.</u>	60	2009-2010	- do -	
222/17-747/2005-PCI Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies, Behind Air Strip, Datana, Dewas Road, <u>Ujjain – 456 664.</u>	60	2010-2011	- do -	
<u>MAHARASHTRA</u>				
46/17-844/08-PCI Shri K.R. Pandav Institute of Pharmacy, Bahadura, Near Dighori Naka, Umred Road, Post – Vihirgaon – 441 204 <u>Nagpur.</u>	60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai - 400 051.</u>	
47/17-546/06-PCI N.D.M. Vidya Prasarak Samaj's Institute of Pharmaceutical Sciences, Medical College Campus, Vasant Dada Nagar, Adgaon, <u>Nashik – 422 003.</u>	60	2011-2012	- do -	
49/17-823/07-PCI Shri Amolak Jain Vidya Prasarak Mandal's Pharmacy College, A/P Kada, Tal – Ashti, <u>Distt. Beed – 414 202.</u>	60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -	

<u>Item No./ File No</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
51/17-807/07-PCI Diploma in Pharmacy College, Janata High School Campus, Naigaon (BZ), <u>Tq. Naigaon (Kh), Nanded.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai - 400 051.</u>
53/17-186/03-PCI Institute of Pharmaceutical Education and Research, Borgaon (Meghe), <u>Wardha - 442 001.</u>		60	2011-2012	- do -
54/17-548/09-PCI Lokmanya Tilak Shikshan Sanstha's J.L. Chaturvedi College of Pharmacy (Diploma), Old Bagadganj, Bhandara Road, <u>Nagpur - 440 008.</u>		60	2011-2012	- do -
56/17-794/07-PCI Adarsh Institute of Pharmacy, Bhavaninagar, VITA, Tal. Khanapur, <u>Dist. Sangli - 415 311.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
57/17-810/2007-PCI Sree Santkrupa Shiksha Sanstha's College of Pharmacy (D.Pharm), Ghogaon (Shivajinagar) Tal -Karad, <u>Distt. Satara.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
58/17-98/98-PCI Geetadevi Khandelwal Institute of Pharmacy, Godbole Plots Dabki Road, <u>Akola - 444 002.</u>		60 One extra admission during 2009-2010 a.s.	2011-2012	- do -
59/17-609/2004-PCI JSPM's Jayawant Institute of Pharmacy, S.No.82/3, Pune-Mumbai Bypass Highway, Near Wakad Police Chowky Tathawade, <u>Pune - 411 033.</u>		60	2011-2012	- do -
61/17-276/2007-PCI J.E.S. Institute of Pharmacy, J.E.S. College Campus, Durgamata Road, <u>Jalna - 431 203.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
62/17-142/2005-PCI Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha's Kolhapur, Institute of Pharmacy, Shikshan Maharashi Dr. Bapuji Salunkhe College Campus, <u>Miraj, Distt. Sangli- 416 410.</u> (Formerly Institute of Pharmacy, Miraj Medical Centre, Miraj)		60	2010-2011	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai - 400 051.</u>
63/17-791/2007-PCI Lokseva College of Pharmacy Phulgaon, Pune, S.No.200/1B, Phulgaon (Markal Phata Nagar Road), Taluka-Haveli, <u>Distt. Pune - 412 216.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
223/17-867/2008-PCI Dwarka Institute of Pharmacy, At- Malvihir, Botha Road, <u>Buldana - 443 001.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
224/17-847/2008-PCI Shriram Shikshan Sanstha's College of Pharmacy, At. Post : Pani, Tal. Malshirras, <u>Distt. Solapur - 413 113.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
225/17-848/2008-PCI Godavari Shikshan Mandal's, Asian Institute of Pharmacy, Near Nisarga Row House, Pathardi Road, <u>Nashik - 422 010.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
226/17-871/2008-PCI Matoshri Education Society's M.A.B.D. Diploma College of Pharmacy, At/Post-Babhulgaon, <u>Tal. Yeola, Distt. Nashik.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
227/17-845/2008-PCI Anand Charitable Society's College of Pharmacy, Gangai Nagar, Ashti, Tq-Ashti, <u>Distt. Beed - 414203.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
228/17-861/2008-PCI G.H.Raisoni Institute of Life Sciences, BID MHASALA, <u>Hingna Road, Nagpur.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
229/17-843/2008-PCI Poona District Education Association's Shakarrao Ursal College of Pharmacy (Diploma), Sr. No. 15/2A/1/1, Bhind Zensar I.T. Tower, Kharadi, Tal. Haveli, <u>Distt. Pune.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education, Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai - 400 051.</u>
230/17-623/2009-PCI Sri Gulabrao Deokar Institute of Pharmacy & Research Centre, 2 nd Floor, Near Dr. Babasaheb Ambedkar Market, <u>Jalgaon - 425 001.</u>		60	2011-2012	- do -
231/17-655/2004-PCI Central India Institute of Pharmacy, Near Godhani Railway, Godhani, <u>Nagpur - 441 111.</u>		60	2012-2013	- do -
232/17-284/99-PCI Satara Education Society's Satara Polytechnic, Mangalwar Peth, <u>Satara - 415 002.</u>		60	2011-2012	- do -
233/17-858/2008-PCI Amrutvahini Institute of Pharmacy, Sangamner, Tal. Sangamner, Distt. Ahmed Nagar, <u>P.O. Sangamner (SK).</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -
236/17-601/2006-PCI Vishal Junnar Seva Mandals Institute of Pharmacy for Women Ale, Tal- <u>Junnar Distt. Pune.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>ORISSA</u>				
65/17-482/2006-PCI Women's Polytechnic, Plot No.1, Chandrasekharapur, Near Xavier Institute of Management, <u>Bhubaneshwar - 751 023.</u>		60	2011-2012	The Controller of Examinations State Council of Technical Education & Vocational Training, Orissa, Unit - VIII, Near Raj Bhavan, <u>Bhubaneshwar - 12.</u>
66/17-633/04-PCI Maruti Pharmacy College, At - Kalimandir Chowk, <u>Bargarh - 768 028.</u>		40	2010-2011	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Bldg.) P.O. Mancheswar, Railway Colony <u>Bhubneshwar - 751 017.</u>

<u>Item No. File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
240/17-575/2009-PCI Jeypore College of Pharmacy, At/P.O. Rondapali, Jeypore – 764 002 <u>Distt. Kaoraput.</u>		60	2011-2012	The Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Bldg.) P.O. Mancheswar, Railway Colony <u>Bhubneshwar – 751 017.</u>
335/17-660/2009-PCI Sivananda College of Pharmacy, Near Engg. School Square, L.B. Shastri Marg, Berhampur, <u>Distt. Ganjam – 760 010.</u>		60	2012-2013	- do -
336/17-578/2003-PCI Om Sai College of Pharmacy & Health Sciences, Gopalpur-on-Sea, <u>Distt. Ganjam – 761 002.</u>		60	2012-2013	- do -
337/17-403/2003-PCI Institute of Pharmaceutical Science & Technology, Padmapur, At/Bahadulapatna, P.O. Bahugaram, <u>Cuttack – 754 200.</u>		60	2011-2012	- do -
405/17-193/2007-PCI Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, At/PO Chhend, Rourkela, <u>Distt. Sundergarh.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>PUNJAB</u>				
67/17-749/06-PCI Sri Sai College of Pharmacy, Badhani, <u>Pathankot – 145 001.</u>		60	2011-2012	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Sector 36-A, Plot No.1-A <u>Chandigarh.</u>
241/17-761/2006-PCI Guru Nanak Institute of Pharmacy Dalewal (Bhunga), P.O. Haryana, Tehsil & Distt. <u>Hoshiarpur – 146 001.</u>		60	2011-2012	- do -
242/17-328/94-PCI Govt. Polytechnic College, <u>Bathinda – 151 001.</u>		30	2010-2011	- do -
243/17-503/2000-PCI Janak Raj Mahajan Adarsh Bhartiya College of Pharmacy, Dalhousie Road, <u>Pathankot – 145 001.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
244/17-507/2002-PCI Baba Isher Singh Polytechnic, Dharamkot Road (Moga), <u>Kot-Se-Khan – 148 026.</u>		60	2010-2011	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Sector 36-A, Plot No.1-A <u>Chandigarh.</u>
245/17-768/2009-PCI Onkar College of Pharmacy, Sajuma, P.O. Nagra, Near Bhiwanigarh, <u>Distt. Sangrur – 148 026.</u>		60	2012-2013	- do -
338/17-885/2009-PCI Punjab Multipurpose Medical Institute, VPO – Sehna – 148 103 <u>Distt. Barnala.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -
339/17-772/2009-PCI Guru Hargobind College of Pharmacy Raikot (LDH), Opp. Reliance Petrol Pump, Barnala road, Gondwal, <u>Raikot – 141 109.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>RAJASTHAN</u>				
69/17-68/03-PCI Deptt. of Pharmacy, Public Health Training Institute, S.M.S. Medical College Hospital Campus, <u>Jaipur – 302 002.</u>		60	2011-2012	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u>
70/17-771/06-PCI Akashdeep College of Pharmacy, Sector-11, Agrawal Farm, Mansarovar <u>Jaipur – 302 020.</u>		60	2011-2012	- do -
72/17-280/94-PCI Parmanand College of Technology, Gajsinghpur, <u>Distt. Sri Ganganagar – 335 024.</u>		60	2011-2012	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u> The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u>
246/17-712/2005-PCI Regional College of Pharmacy, ISI-7, RIICO Institutional Area, Sitapura, <u>Jaipur-302 022.</u>		60	2009-2010	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, Kumbha Marg Sector – 18, Pratap Nagar Tonk Road <u>Jaipur – 302 003.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
247/17-555/06-PCI Sanjivani College of Pharmaceutical Sciences Khetri Vill, Rajota, <u>Distt. Jhunjhunu.</u>		60	2011-2012	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur.</u>
248/17-348/98-PCI Maharshi Arvind College of Pharmacy, Ambhani Circle, <u>Jaipur.</u>		60	2011-2012	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u>
<u>TAMILNADU</u>				
76/17-423/2003-PCI Texcity College of Paramedical Sciences, Opp. to Karuparayan Koil, Podanur Main Road, <u>Coimbatore – 641 023.</u>		40	2011-2012	The Director Dte. Of Medical Education 162, Poonamallee High Road Kilpauk <u>Chennai – 600 010.</u>
77/17-467/2006-PCI Royal College of Pharmacy and Paramedical Sciences, 15/177, Marappalam, Madukkarai, <u>Coimbatore – 641 105.</u>		60	2011-2012	- do -
78/17-261/2006-PCI K.K. College of Pharmacy, KRA Campus, 1/161, Sankaralinganar Road, Gerugambakkam, <u>Chennai – 602 101.</u>		60	2010-2011	- do -
407/17-149/2002-PCI Periyar College of Pharm. Sciences for Girls, Periyar Centenary Educational Complex Sathanoor Main Road, <u>Tiruchirapalli – 620 021.</u>		60	2012-2013	- do -
<u>UTTARAKHAND</u>				
79/17-66/2003-PCI Govt. Polytechnic, Dwarahat, <u>Almorah – 263 653.</u>		40	2011-2012	The Secretary Uttaranchal Board of Technical Education, 37/3, Civil Lines, Opp. Shiv Mandir, Roorkee – 247 667. <u>Distt. Haridwar.</u>
80/17-136/2005-PCI Govt. Polytechnic, Srinagar, <u>Garhwal – 246 174.</u>		40	2011-2012	- do -
408/17-298/2002-PCI Govt. Polytechnic, <u>Nainital – 263 001.</u>		40	2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>UTTAR PRADESH</u>				
82/17-754/2006-PCI Faculty of Pharmacy, Integral University, Dasauli, Kursi Road, <u>Lucknow – 226 026.</u>		60	2010-2011	The Registrar Integral University, Dasauli, Kursi Road, <u>Lucknow – 226 026.</u>
83/17-567/03-PCI Institute of Pharmacy, Bundelkhand University, Kanpur Road, <u>Jhansi – 284 128.</u>		60	2011-2012	The Registrar Bundelkhand University Kanpur Road, <u>Jhansi – 284 128.</u>
251/17-55/2007-PCI Department of Pharmacy, S.N. Medical College, <u>Agra – 282 002.</u>		60	2008-2009	The Secretary, U.P. State Medical Faculty, 5, Sarvapally Mall, Avenue Road, <u>Lucknow – 226 001.</u>
252/17-821/2007-PCI School of Pharmacy, Itaura, Chandeshwar, <u>Azamgarh – 276 128.</u>		40	From 2007-2008 to 2010-2011	The Secretary Board of Technical Education, Guru Gobind Singh Marg, U.P. <u>Lucknow – 226 001.</u>
<u>WEST BENGAL</u>				
84/17-552/99-PCI Sree Ramakrishna Silpa Vidyapith (Govt. Polytechnic), P.O. Suri, Distt. <u>Birbhum – 731 101.</u>		30	2011-2012	The Secretary West Bengal State Council of Technical Education, “Kolkata Karigori Bhavan” 2 nd Floor, 110, S.N. Banerjee Road, <u>Kolkata – 700 013.</u>
85/17-10/98-PCI Institute of Pharmacy, Govt. of West Bengal, <u>Jalpaiguri – 735 101.</u>		60	2011-2012	The Secretary State Medical Faculty of West Bengal 8, Lyons Range (3 rd Floor) <u>Kolkata – 700 001.</u>

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.”

DEGREE IN PHARMACY

Resolution No. 85/PCI/1394

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
15/32-472/08-PCI J.J. College of Pharmacy, Maheshwaram – 501 359 <u>Ranga Reddy Distt.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
17/32-166/98-PCI Nalanda College of Pharmacy (P.O) Charlapally, Hyderabad Road, <u>Nalgonda – 508 001.</u>		60	2011-2012	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad – 500 007.</u>
86/32-496/2008-PCI Trinity College of Pharmaceutical Sciences, Peddapalli, Distt. <u>Karimnagar – 505 172.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar Kakatiya University Vidyanarayapuri <u>Warangal – 506 009.</u>
87/32-393/09-PCI Sri Krishna Chaitanya College of Pharmacy, Nimmanapalle Road, Gangannagaripalle (Villag), Madanapalle – 517325 <u>Distt. Chittoor.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University <u>Ananthapur – 515 002.</u>
89/32-369/06-PCI Sree Vidyanikethan College of Pharmacy, Sree Sainath Nagar, A. Rangampet, (Near) Tirupathi, <u>Chandagiri (M), Chittoor Distt.</u>		60	2011-2012	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
98/32-373/09-PCI Aditya Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Aditya Nagar, ADB Road, Peddapuram, Surapalem – 533 437. <u>East Godavari Distt.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Andhra University, Waltair, <u>Vishakhapatnam – 530 003.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
100/32-256/09-PCI Bharat Institute of Technology, Mangalpalli Village, Ibrahimpattam (Mandal), <u>Distt. Ranga Reddy – 501 510.</u>		60	2011-2012	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
102/32-350/2006-PCI Maharaja's College of Pharmacy Phool Baugh, <u>Vizianagaram – 535 002.</u> (Formerly known as Department of Pharmaceutical Sciences, Post Graduate Course & Maharajah's College, Phool Baugh Vizianagaram – 535 002).		60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar Andhra University, Waltair <u>Visakhapatnam – 530 063.</u>
104/32-372/2006-PCI Malla Reddy College of Pharmacy, Maisammaguda, Dhualapally Post, Via Hakimpet, <u>Secunderabad – 500 014.</u>		60	2011-2012	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad – 500 007.</u>
105/32-462/2008-PCI Jayamukhi College of Pharmacy, Moqdumpuram (Vill), Chennaraopet (Mdl), Via Narsampet, <u>Dist. Warangal – 506 332.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	The Registrar Kakatiya University <u>Warangal – 506 009.</u>
108/32-495/2008-PCI Brown's College of Pharmacy, Ammapalem (V), Near Thanikella, Konijerla (M), <u>Khammam – 507 305.</u>		60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar Kakatiya University <u>Warangal – 506 009.</u>
110/32-422/2007-PCI GITAM Institute of Pharmacy (formerly College of Pharmacy, GITAM), GITAM University, Gandhinagar Campus, Rushikonda, <u>Visakhapatnam – 530 045.</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Registrar Andhra University Waltair <u>Visakhapatnam – 530 063.</u> (From 2006-2007 & 2007- 2008) The Registrar GITAM University, Rushikonda Gandhinagar Campus, Rushikonda, <u>Visakhapatnam – 530 045.</u> (From 2008-2009)
203/32-223/2009-PCI Smt. Sarojini Ramulamma College of Pharmacy, Sheshadrinagar, <u>Mahbubnagar – 509 001.</u>		60	2011-2012	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad – 500 007.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
206/32-231/05-PCI Hindu College of Pharmacy Amaravathi Road, <u>Guntur.</u>		60	2011-2012	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar <u>Guntur.</u>
211/32-331/2005-PCI Annamacharya College of Pharmacy, New Boyanapalli, Rajampet – 516 126, <u>Distt. Kadapa.</u>		60	2011-2012	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
262/32-432/2008-PCI Vikas College of Pharmacy Suryapet, Nalgonda <u>Ravanigudem (V).</u>		60	2012-2013	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad – 500 007.</u>
264/32-465/2009-PCI Sri Vasavi Institute of Pharmaceutical Sciences, Pedatadepalli, Tadepalligudem, <u>Distt. West Godavari.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar Andhra Univeristy, Waltair <u>Vishakhapatnam – 530 063.</u>
329/32-210/2000-PCI Viswambhara Educational Society, Vaagdevi College of Pharmacy, #2-2-457/3, Ramnagar, Hanamkonda, <u>Warangal – 506 001.</u>		60	2010-2011	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri <u>Warangal – 506 009.</u>
350/32-391/2009-PCI Srikrupa Institute of Pharmaceutical Sciences, Vill; Velkatta; Mdl: Kondapak; Siddipet; <u>Distt. Medak – 502 277.</u>		60	2011-2012	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad – 500 007.</u>
396/32-222/2001-PCI Vishwa Bharathi College of Pharmaceutical Sciences, N.R.T. Road, Perecherla, <u>Guntur – 522 009.</u>		60	2011-2012	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
415/32-457/2010-PCI Vaageswari College of Pharmacy, Beside L.M.D. Police Station, <u>Karimnagar – 505 481.</u>		60	2010-2011	The Registrar Kakatiya University Vidyananyapuri, <u>Waranagal – 506 009.</u>
420/32-455/2010-PCI Care College of Pharmacy, Oglapur (V), Atmakur (M), <u>Warangal (Distt.) – 506 006.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
455/32-582/2009-PCI Sree Dattha Institute of Pharmacy, Sheriguda (V), Ibrahimpatnam (M), <u>Ranga Reddy (Distt.) – 501 510.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar Jawahar Lal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
456/32-338/2010-PCI S.R.R. College of Pharmaceutical Sciences, Valbhapur (V), Elkathurthy (M), <u>Karmnagar Distt. – 505 476.</u>		60	2010-2011	The Registrar Kakatiya University Vidyaranyaपुरी, <u>Waranagal – 506 009.</u>
<u>ASSAM</u>				
111/32-35/91-PCI Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Dibrugarh University, <u>Dibrugarh – 786 004.</u>		40	2013-2014	The Registrar Dibrugarh University <u>Dibrugarh – 786 004.</u>
<u>BIHAR</u>				
363/32-38/2009-PCI Bihar College of Pharmacy, New Bailey Road, Danapur, <u>Patna – 801 503.</u>		30	2010-2011	The Registrar, Magadh University, <u>Bodh-Gaya-824 234.</u>
<u>CHANDIGARH</u>				
353/32-3/91-PCI University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, <u>Chandigarh – 160 014.</u>		55	2014-2015	The Registrar Punjab University <u>Chandigarh – 160 014.</u>
<u>CHHATTISGARH</u>				
19/32-235/02-PCI SLT Institute of Pharmaceutical Sciences, Guru Ghasi Das University, <u>Bilaspur – 495 009.</u>		60	2011-2012	The Registrar Guru Ghasi Das University, <u>Bilaspur – 495 009.</u>
265/32-308/2006-PCI University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, <u>Raipur.</u>		60	2012-2013	The Registrar Pt. Ravishankar Shukla University, <u>Raipur – 492010.</u>
266/32-475/2009-PCI Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Behind Holiday Resort, Near Power Grid Colony, Kumhari, <u>Distt. Durg.</u>		60	From 2004-2005 to 2012-2013	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u>

<u>Item No. File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
26779/519/2008-PCI Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, <u>Raipur - 493 111.</u>		60	From 2006-2007 to 2012-2013	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector-8, <u>Bhilai - 490 009.</u>

GOA

21/32-21/2009-PCI Goa College of Pharmacy 18 th June Road, <u>St. Inez. Panaji.</u>	60	2013-2014	The Registrar Goa University, Taleigao Plateau <u>Panaji - Goa.</u>
--	----	-----------	---

GUJARAT

113/32-356/2009-PCI Institute of Pharmacy, Nirma University of Scs. & Technology, Sarkhej - Gandhinagar Highway, <u>Ahmedabad - 382 481.</u>	60	2010-2011	The Registrar, Nirma University of Health Sciences, Sarkhej-Gandhinagar Highway <u>Ahmedabad - 382 481.</u>
---	----	-----------	--

114/32-282/09-PCI Maliba Pharmacy College, Gopal Vidyanagar Campus, Bardoli - Mahuva Road, Tal. Mahuva, Tarsadi, <u>Distt. Surat - 394 350.</u>	60	2011-2012	The Registrar Veer Narmad South Gujarat University University Campus Road Udhna- Magdalla Road <u>Surat - 395 007.</u>
---	----	-----------	--

			The Registrar Gujarat Technological Univ., 2 nd Floor, ACPC Building, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura <u>Ahmedabad - 380 015.</u> (with effect on & from 08 th July, 2008)
--	--	--	--

117/32-352/06-PCI Sigma Institute of Pharmacy, At Post: Bakrol, Ajwa Nimeta Road, Opp. Madhavnagar, Tal. Waghodia, <u>Dist. Vadodara.</u>	60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar Veer Narmad South Gujarat University University Campus Road Udhna- Magdalla Road <u>Surat - 395 007.</u>
--	----	--------------------------------	--

The Registrar
Gujarat Technological Univ.,
2nd Floor, ACPC Building,
L.D. College of Engineering
Campus, Navrangpura
Ahmedabad - 380 015.
(with effect on & from 08th
July, 2008)

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
269/32-505/2008-PCI L.J. Institute of Pharmacy Okaf Village, Near Nagdev Kalyan Mandir, S.G. Highway Sanand Cross Road, Ahmedabad.		60	From 2004-2005 to 2012-2013	The Registrar Gujarat University Navrangpura Ahmedabad – 380 009.
400/32-54/2005-PCI B.K. Mody Govt. Pharmacy College, Polytechnic Campus, Near Aji Dam, Bhavnagar Road, Rajkot – 360 003.		60	2011-2012	The Registrar Saurashtra University University Campus Kalawad Road Rajkot – 360 005 (Gujarat)
				The Registrar Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura, Ahmedabad – 380 015. (with effect on & from 8 th July, 2008)
425/32-479/2009-PCI Vidyabharti Trust College of Pharmacy, Umrakh At. & Po: Umrakh, Bardoli Mota Road, Ta. Bardoli Distt. Surat – 394345.		60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar Veer Narmad South Gujarat University University Campus Road Udhna- Magdalla Road Surat – 395 007.
				The Registrar Gujarat University, Navrangpura Ahmedabad – 380 009.
426/32-201/2009-PCI Sri Sarvajani Pharmacy College, Nr. Arvind Baug., Mehsana – 384 001.		60	2012-2013	The Registrar Hemchandracharya North Gujarat University P.B. No.21, University Road Patan – 384 265. (1998 to 2008)
				The Registrar Gujarat Technological Univ., 2 nd Floor, ACPC Building, L.D. College of Engineering Campus, Navrangpura Ahmedabad – 380 015. (w.e.f. July, 2008)
HARYANA				
122/32-411/2007-PCI University Institute of Pharmaceutical Sciences, Kurushetra University, Kurushetra – 136119.		60	From 2003-2004 to 2011-2012	The Registrar Kurushetra University, Kurushetra – 136 119.

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
123/32-184/99-PCI Hindu College of Pharmacy Gohana Road, Near Panchayat Bhawan, <u>Sonepat – 131 001.</u>		60	2011-2012	The Registrar Maharishi Dayanand University <u>Rohtak – 124 001.</u>
216/32-335/2005-PCI B.S. Anangpuria Institute of Pharmacy Alampur, Ballabgarh – Sohna Road, <u>Faridabad.</u>		60	2012-2013	- do -
270/32-389/2009-PCI PDM College of Pharmacy, Sarai Aurangabad, Bahadurgarh, <u>Distt. Jhajjar – 124 507.</u>		60	2011-2012	- do -
402/32-436/2007-PCI R.K.S.D. College of Pharmacy, Ambala Road, <u>Kaithal – 136 027.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar Kurushetra University, <u>Kurushetra – 136 119.</u>
428/32-177/99-PCI Deptt. of Pharm. Sciences, Maharshi Dayanand University, <u>Rohtak – 124 001.</u>		60	2010-2011	The Registrar, Maharishi Dayanand University <u>Rohtak.</u>
<u>HIMACHAL PRADESH</u>				
125/32-527/09-PCI Abhilashi College of Pharmacy, Tanda P.O. Bali, Teh. Sadar, <u>Distt. Mandi</u>		60	From 2006-2007 to 2011-2012	The Registrar Himachal Pradesh University “Academic Branch” <u>Shimla – 5.</u>
<u>KARNATAKA</u>				
29/32-426/2007-PCI Bangalore Institute of Pharmacy Education & Research (BIPER), # 12, Kogilu Main Road, Yelahanka, <u>Bangalore – 64.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	The Registrar, Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, <u>Bangalore – 560 041.</u>
30/32-130/00-PCI Rajiv Memorial Education Society's College of Pharmacy, Balaji Nagar, Old Jewargi Road, <u>Distt. Gulbarga – 585 102.</u>		40	2011-2012	- do -
35/32-132/2009-PCI Milind Institute of Pharmacy, J.C. Nagar, W.C. Road, Pipeline Road, Mahalakshmi Post, <u>Bangalore – 560 086.</u>		40	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
37/32-120/2009-PCI U.V.K. Gautham College of Pharmacy, Sultanpalaya, R.T. Nagar Post, <u>Bangalore – 560 032.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, <u>Bangalore – 560 041.</u>
38/32-129/2004-PCI R.R.K. Samithi's Kishan Lal Pande College of Pharmacy Naubad <u>Bidar – 585 402.</u>		60	2010-2011	- do -
126/32-5/03-PCI Govt. College of Pharmacy, No.2, P. Kalinga Rao Road, Subbaiah Circle, <u>Bangalore- 560 027.</u>		60	2013-2014	- do -
127/32-121/01-PCI B.V.V. Sangha's Hangal, Sri Kumareshwara College of Pharmacy, <u>Bagalkot – 587 101.</u>		60	2013-2014	- do -
128/32-174/08-PCI KCT College of Pharmacy, Post Box No.104, Qamar-Ul-Islam Colony, Roza Bagh, <u>Gulbarga – 585 104.</u>		40	2010-2011	- do -
132/32-79/06-PCI V.L. College of Pharmacy, Manik Prabhu Temple Road, <u>Raichur – 584103.</u>		60	2011-2012	- do -
133/32-158/2006-PCI S.E.T'S College of Pharmacy, S.R. Nagar, Near Microwave, Tower, Tejaswinagar, <u>Dharward – 580 002.</u>		60	2010-2011	- do -
332/32-289/2004-PCI Priyadarshni College of Pharmacy, Koratagere, <u>Distt. Tumkur – 572 129.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	- do -
429/32-380/07-PCI East West College of Pharmacy, # 63, 1 Phase, B.E.L. Layout, Bharathnagar, Vishwaneedam Post, Off Magadi Road, <u>Banglore – 560 091.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	- do -

<u>Item No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>KERALA</u>				
42/32-359/2006-PCI	Govt. College of Pharmaceutical Sciences, Medical College, Calicut, <u>Kozhikode – 673 008.</u>	20	2011-2012	The Registrar University of Calicut Calicut University P.O., Thenhipalam <u>Dist. Malapuram – 673 635.</u>
135/32-312/2009-PCI	J.D.T. Islam College of Pharmacy, Jamiath Hill, Marikunnu (P.O.), <u>Calicut – 673012.</u>	60	2011-2012	- do -
136/32-409/2007-PCI	Mar Dioscorus College of Pharmacy, Alathara, Sreekariyam P.O., <u>Thiruvananthapuram – 695 017.</u>	60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar University of Kerala, Palayam, <u>Thiruvananthapuram-695 001.</u>
273/32-320/2009-PCI	St. Joseph's College of Pharmacy, Dharmagiri College Campus, Naipunnya Road, <u>Cherthala – 688 524.</u>	60	2011-2012	- do -
274/32-299/2005-PCI	Ezhuthachan College of Pharmaceutical Sciences, Marayamuttom, Neyyattinkara, <u>Thiruvananthapuram – 695 131.</u>	60	2011-2012	- do -
275/32-284/2006-PCI	Grace College of Pharmacy, Post: Kodunthirappully-678 004, <u>Distt. Palakkad.</u>	60	2011-2012	The Registrar University of Calicut Calicut University post <u>Dist. Malapuram – 673 635.</u>
<u>MADHYA PRADESH</u>				
138/32-257/09-PCI	College of Pharmacy, IPS Academy, Hukamakhedi, Rajendra Nagar, <u>Indore – 452 012.</u>	60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>
141/32-4/05-PCI	Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya, <u>Sagar – 470 003.</u>	60	2013-2014	The Registrar, Dr.H.S. Gour Vishwavidyalaya, <u>Sagar – 470 003.</u>
142/32-410/07-PCI	Sun Institute of Pharmaceutical Education & Researach (SIPER), Lahar, <u>Distt. Bhind – 477 445.</u>	60	From 2002-2003 to 2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>

<u>Item No. File No</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
143/32-341/2006-PCI Guru Ramdas Khalsa Institute of Sciences and Technology (Pharmacy), Kukrikheda, Barela, <u>Jabalpur – 483001.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudtyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>
222/32-327/2005-PCI Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies, Behind Air Strip, Datana, Dewas Road, <u>Ujjain – 456 664.</u>		60	2010-2011	- do -
356/32-416/2010-PCI Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, N.H. 75, Jhansi-Gwalior Road, <u>Datia.</u>		60	From 2003-2004 to 2010-2011	- do -
430/32-105/96-PCI School of studies in Pharm. Sciences, Jiwaji University, <u>Gwalior – 474 011.</u>		60	Upto 2007-2008 (For 2010-2011 & 2011-2012)	The Registrar Jiwaji University, <u>Gwalior – 474 011.</u>
458/32-454/2008-PCI Rishiraj College of Pharmacy, Revati (Near Toll Tax Naka) Sanwer Road, <u>Indore – 453 331.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudtyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>
<u>MAHARASHTRA</u>				
53/32-32/04-PCI Institute of Pharmaceutical Education and Research, Borgaon (Meghe), <u>Wardha – 442 001.</u>		60	2011-2012	Registrar The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Chhtrapati Shivaji Maharaj Administrative Premises Ravindranath Tagore Marg <u>Nagpur – 440 001.</u>
57/32-441/2009-PCI Sree Santkrupa Shiksha Sanstha's College of Pharmacy (D.Pharm), Ghogaon (Shivajinagar) <u>Tal – Karad, Distt. Satara.</u>		60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar Shivaji University Vidyanagar <u>Kolhapur – 416 001.</u>
145/32-148/03-PCI Tapi Valley Education Society's College of Pharmacy, Nehru Vidya Nagar, <u>Faizpur – 201 206.</u>		60	2011-2012	The Registrar North Maharashtra University, Umavinagar, P.B. No. 80, <u>Jalgaon – 425 001.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
147/32-194/03-PCI J.L. Chaturvedi College of Pharmacy (Degree), Electronics Zone Building, MIDC, Hingna Road, <u>Nagpur – 440 016.</u>		60	2011-2012	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj, Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg, <u>Nagpur – 440 001.</u>
152/32-347/06-PCI Progressive Education Society's Modern College of Pharmacy (For Ladies), Borhadewadi, Dehu-Alandi Road, A/P Moshi, Tal. Haveli, <u>Distt. Pune – 412 105.</u>		60	From 2004-2005 to 2011-2012	The Registrar, University of Pune, Ganeshkhind <u>Pune – 416 007.</u>
156/32-297/09-PCI Singhad Technical Education Society's, Singhad Institute of Pharmaceutical Sciences (SIPS), Gat. No.309, 310; Off Mumbai Pune Expressway, Kusgaon (BK), Lonavala, Ta.Maval, <u>Pune – 411007.</u>		60	2011-2012	- do -
158/32-225/2002-PCI Maharashtra Academy of Engineer and Educational Research's Maharashtra Institute of Pharmacy S.No.124 Ex – Serviceman Colony, MIT Campus, Paud Road ,Kothurud <u>Pune - 411 038.</u>		60	2011-2012	- do -
280/32-15/1999-PCI Bombay College of Pharmacy, Kalina, Santacruz (East), <u>Mumbai – 400 098.</u>		60	2013-2014	The Registrar, University of Mumbai, Kalina, Santacruz (E) Fort, <u>Mumbai – 400 032.</u>
283/32-399/2007-PCI Amrutvahini Sheti & Shikshan Vikas Sanstha's Amrutvahini College of Pharmacy, Post – Sangamner (S.K.) – 422 608, Tal – Sangamner, <u>Distt. Ahmednagar.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar, University of Pune Ganeshkhind <u>Pune – 416 007.</u>
284/32-211/2006-PCI Govt. College of Pharmacy, Opp. Govt. Polytechnic, Osmanpura, <u>Aurangabad – 431 005.</u>		40	2008-2009	The Registrar Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, University Campus, <u>Aurangabad – 431 004.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
285/32-227/2009-PCI Yavatmal Zilla Vikas Samiti's Pataldhamal Wadhwani College of Pharmacy, Girija Nagar, Dhamangaon Road, <u>Yavatmal – 445 001.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Sant Gadge Amravati University Tapovan Road, <u>Amravati – 444 602.</u>
359/32-93/2010-PCI Mahatma Gandhi Vidyamandir's Pharmacy College, Mumbai Agra Road, Panchavati, <u>Nashik – 422 003.</u>		60	2013-2014	The Registrar, University of Pune Ganeshkhind <u>Pune – 416 007.</u>
360/32-100/2003-PCI Smt. Sharadchandrika Suresh Patil College of Pharmacy Chopda – 425 004 <u>Distt. Jalgaon.</u>		60	2011-2012	The Registrar North Maharashtra University, NMU Nagar, P.B. No. 80 <u>Jalgaon – 425 001.</u>
444/32-402/2007-PCI Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy, Gate No.1, Mithibai College Premises, 1 st Floor, V.M. Road, Vile Parle (West), <u>Mumbai – 400 056.</u>		60	2011-2012	The Registrar University of Mumbai, Kalina, Santacruz (E) Fort, <u>Mumbai – 400 032.</u>
<u>MIZORAM</u>				
159/32-337/2005-PCI Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Zemabawk, <u>P.O. : Aizawl – 796 017.</u>		38	From 2004-2005 to 2010-2011	The Director Mizoram University P.B. No. 190, Gram MZU <u>Aizawl – 796 012.</u>
<u>ORISSA</u>				
160/32-170/06-PCI Institute of Pharmacy & Technology, At/P.O. Salipur, <u>Distt. Cuttack – 754 202.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Biju Patnaik University of Technology, Roukela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika <u>Berhampur – 760 003.</u>
161/32-382/2009-PCI School of Pharmaceutical Sciences, Siksha "O" Anusandhan University, At. Jagamara, PO: Khandagiri, <u>Bhubaneswar – 751 030.</u>		60	2010-2011	The Registrar, Biju Patnaik University of Technology, Roukela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika <u>Berhampur – 760 003.</u>
				The Registrar Siksha "O" Anusandhan University, At. Jagamara, PO: Khandagiri, <u>Bhubaneswar – 751 030.</u> (w.e.f.17 th September, 2007)

<u>Item No.</u> <u>File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admission</u> <u>Limited to</u>	<u>Approved upto</u> <u>Academic session</u>	<u>Name of the</u> <u>Examining Authority</u>
240/32-264/2004-PCI Jeypore College of Pharmacy, At/P.O. Rondapali, Jeypore – 764 002 <u>Distt. Kaoraput.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Biju Patnaik University of Technology, UGIE Complex <u>Berhampur – 760 014.</u>
405/32-70/2005-PCI Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, At/PO Chhend, Rourkela, <u>Distt. Sundergarh.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>PUNJAB</u>				
162/32-206/01-PCI Department of Pharmaceutical Sciences Guru Nanak Dev University, <u>Amritsar – 143005.</u>		30	2011-2012	The Registrar Guru Nanaik Dev University, <u>Amritsar-143 005.</u>
163/32-281/04-PCI Govt. Polytechnic, P.O.Rayon & Silk Mills, <u>Amritsar - 143104.</u>		30	2011-2012	The Registrar, Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Byepass, G.T. Road, Ladowali Road, <u>Jalandhar – 144 001.</u>
164/32-228/09-PCI Department of Pharmaceutical Sciences Govt. Polytechnic College for Girls, Rajpura Road. <u>Patiala -147001.</u>		40	From 2001-2002 to 2010-2011	- do -
167/32-360/06-PCI Global College of Pharmacy, Khanpur Khui (Anand Pur Sahib, Garhshankar Road), Tehsil Anandpur Sahib, <u>Distt. Ropar 140 117.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	- do -
32-317/09-PCI Lovely Institute of Technology (Pharmacy), Near Chehru Railway Bridge, Phagwara, Distt. Kapurthala		60	2011-2012	The Registrar, Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Byepass, G.T. Road, Ladowali Road, <u>Jalandhar – 144 001.</u> The Registrar Lovely Professional University Jalandhar-Ludhiana G.T. Road Near Chaheru Railway Bridge PHAGWARA – 144 402 (Punjab) Distt. Kapurthala (w.e.f. B.Pharm Pt.I admitted in 2008-09)

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
288/32-287/2009-PCI S.D.College of Pharmacy K.C.Road , <u>Barnala.</u>		40	2011-2012	The Registrar, Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Bypass, G.T. Road, Ladowali Road, <u>Jalandhar – 144 001.</u>
289/32-357/2006-PCI Shivalik College of Pharmacy, Nangal, <u>Distt. Ropar.</u>		40	2010-2011	- do -
290/32-420/2007-PCI Sri Sai College of Pharmacy, Badhani, Pathankot, <u>Gurdaspur – 145 001.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	- do -
291/32-481/2008-PCI Chitkara College of Pharmacy, Chandigarh—Patiala National Highway, Tehsil – Rajpura, <u>Distt. Patiala - 145 001.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	- do -

RAJASTHAN

169/32-564/2009-PCI Arya College of Pharmacy, SP-40, Kukas Industrial (RHICO), NH-8, Delhi Road, Kukas, <u>Jaipur.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 004.</u> The Registrar Rajasthan University of Health Scs., Sector 18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, <u>Jaipur.</u>
173/32-425/2007-PCI Lal Bahadur Shastri College of Pharmacy, Udia Marg, Tilak Nagar, Jaipur – 302 004		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u> (From 2004-2005 to 2005-2006) The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u> (From 2006-2007)

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
174/32-295/2010-PCI Seth G.L. Bihani, S.D. College of Technical Education, Institute of Pharmaceutical Sciences & Drug Research, Gagan Peth, <u>Sri Ganaganagar – 335 001.</u>		60	2011-2012	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u>
247/32-193/09-PCI Sanjivani College of Pharmaceutical Sciences Khetri Vill, Rajota, <u>Distt. Jhunjhunu.</u>		60	2011-2012	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur.</u>
293/32-353/2006-PCI Institute of Pharmaceutical Sciences, Seedling Academy of Design Technology & Management, Khorebarian, Jagatpura, <u>Jaipur – 302 025.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	The Registrar, University of Rajasthan, <u>Jaipur – 302 001.</u> The Registrar Jaipur National University Jagatpura, <u>Jaipur.</u> (w.e.f. 2008-2009)
433/32-329/2005-PCI Apex Institute of Management & Science, Sector-5, V.T. Road, Mansarovar, <u>Jaipur – 20.</u>		60	2010-2011	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u> The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, Kumbha Marg Pratap Nagar, Sector – 18 <u>Jaipur – 302 003.</u>
<u>TAMILNADU</u>				
78/32-176/2004-PCI K.K. College of Pharmacy, KRA Campus, 1/161, Sankaralinganar Road, Gerugambakkam, <u>Chennai – 602 101.</u>		50	2010-2011	The Registrar, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No.69 (Old No.40), P.B. No.1200, Anna Salai, Guindy, <u>Chennai – 600 032.</u>
175/32-119/05-PCI Maharaji College of Pharmacy, No.1, 7 th Avenuc, Besant Nagar, <u>Chennai – 600 090.</u>		40	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
434/32 164/2009-PCI Cherraan's College of Pharmacy, 521, Siruvani Main Road, Telungupalayam Pirivu, <u>Coimbatore-641 039.</u>		50	2012-2013	The Registrar, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No. 69 (Old No. 40), P.B. No. 1200, Anna Salai, Guindy, <u>Chennai-600 032.</u>
<u>UTTAR PRADESH</u>				
82/32-378/2006-PCI Faculty of Pharmacy, Integral University, Dasauli, Kursi Raod, <u>Lucknow - 226 026.</u>		60	2010-2011	The Registrar Integral University Dasauli, Kursi Road <u>Lucknow - 226 026.</u>
176/32-403/2007-PCI Pranveer Singh Institute of Technology, 548, Bhauti Kalpi Road, <u>Kanpur - 208 005.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engineering & Technology Campus, Sitapur Road, <u>Lucknow - 226 021.</u>
183/32-390/07-PCI Lloyd Institute of Management & Technology, Plot No.11, Knowledge Park-II, <u>Greater Noida - 201 306.</u>		60	2011-2012	- do -
184/32-474/2008-PCI Kamla Nehru Institute of Pharmacy & Research, Faridipur- <u>Sultanpur - 228 118.</u>		60	From 2004-2005 to 2011-2012	- do -
188/32-499/2009-PCI Department of Pharmaceutical Technology, NOIDA, Instt. Of Engineering & Technology, Plot No. 19, Knowledge Park 2, <u>Greater Noida.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	- do -
252/32-258/2003-PCI School of Pharmacy, Itaura, Chandeshwar, <u>Azamgarh - 276 128.</u>		60	2010-2011	- do -
296/32-444/2010-PCI College of Pharmacy Rajkumar Goel Instt. Of Technology, 5 th Km. Stone, Delhi-Meerut Road <u>Ghaziabad.</u>		60	2012-2013	- do -
297/32-524/2010-PCI Shree Ganpati Institute of Technology, Ghaziabad Knowledge Park, Opp. Jindal Pipes Ltd., NH-24, <u>Ghaziabad - 201 302.</u>		60	From 2005-2006 to 2011-2012	- do -

Sl. No.	Name of the Institution	Duration of the Course	Approved Academic Session	Name of the Examining Authority
298/32-442/2009-PCI	I.T.S. Paramedical College Delhi Meerut Road, Muradnagar, <u>Ghaziabad-201 206.</u>	60	2012-2013	The Registrar, Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engineering & Technology Campus, Sitapur Road, <u>Lucknow-226 021.</u>
300/32-276/2004-PCI	Agra Public Pharmacy College, Artoni, Agra – 282 007 (U.P.) (formerly known as Agra Public Institute of Technology & Computer Education, Artoni, Agra, 10, Old Vijay Nagar Colony, <u>Agra – 282 007.</u>	60	2011-2012	- do -

WEST BENGAL

301/32-406/2007-PCI	B.C.D.A College of Pharmacy & Technology, 78, Jessore Road(S), Hridaypur, Barasat, <u>Kolkata – 127 033.</u>	60	From 2006-2007 to 2012-2013	The Registrar West Bengal University of Technology, BF-142, Sector – I, Salt Lake, <u>Kolkata – 700 064.</u>
435/32-511/2008-PCI	Bharat Technology, Village & P.O. Jadurberia, P.S. Uluberia, <u>Howrah -711 316.</u>	60	From 2006-2007 to 2011-2012	- do -

2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No.85/PCI/1395

64/17-560/06-PCI

Pranabandhu Institution of
Paramedical Science & Technology,
Seva Sadan Road,
Angul – 759 122 (Orissa).

"In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares that the Diploma course in Pharmacy conducted by the Pranabandhu Institute of Paramedical Science & Technology, Seva Sadan Road, Angul-759122 and the diploma examination in Pharmacy of the subject institution conducted by the the Member-Secretary Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Bldg.) P.O. Mancheswar, Railway Colony, Bhubneshwar – 751 017, shall be deemed to be approved only when completed or passed by 2009 final year examinations for the students admitted upto 2007-2008 academic session."

Resolution No.85/PCI/1396

432/32-279/2008-PCI

Shri Bhagwan College of Pharmacy,
Dr. Y.S. Khedkar Marg, Cidco N-6,
Aurangabad – 431 003
(Maharashtra).

"In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares that the Degree course in Pharmacy conducted by the Shri Bhagwan College of Pharmacy, Dr.Y.S. Khedkar Marg, CIDCO N-6, Aurangabad – 431 003, Maharashtra and the degree examination in Pharmacy of the subject institution conducted by The Registrar, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, University Campus, Aurangabad – 431 004 (Maharashtra), shall be deemed to be approved only when completed or passed by 2011 final year examinations for the students admitted upto 2007-2008 academic session."

ARCHNA MUDGAL
Registrar-Cum-Secy.